


ॐ नमो भगवते श्री रमणाय

Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya



Index

	Page
1. Chatvarimshat (First ten shlokas)	3
2. Ulladu Narpadu Mangalam	6
3. Aksharamanamalai	7
4. Ramana Sadguru	28
5. Upadesa Saram	33
6. Arunachala Pancharatnam	37
7. Sri Ramana-ashtothara shatanamavali (108 names)	38
8. Hridaya Kuhara Madhye	43
9. Bhajans	44
10. Aarathy: Karpura-nirajanam	50

From Forty Verses in Praise of Sri Ramana, by Kavyakanta Ganapati Muni (Chatvarimshat)

vande śrī ramaṅgaṣer ācāryasya padābjam |

वन्दे श्रीरमणर्षेराचार्यस्य पदाब्जम् ।

yo me'darśayadīśam bhāntam dvāntamatītya | |

यो मेऽदर्शयदीशं भान्तं ध्वान्तमतीत्य ॥

I bow to the lotus feet of the spiritual teacher Rishi Sri Ramana, who showed me the Lord, shining, transcending darkness.

kathayā nijayā kaluṣam haratā

karuṇā nidhinā'runaśaila juṣā |

1. कथया निजया कलुषं हरता, करुणा निधिनाऽरुणशैलजुषा ।
स्वगवाहन प्राणितत्त्वविदा, वृषवाहन मौनरहस्यभृता ॥ १ ॥

khaga vāhana bhāṣita tattva vidā

vṛṣa vāhana mauna rahasya bhṛtā | |1|

The story of his own life removes impurities. He is an ocean of compassion, taking delight in the red mountain (Arunachala). He knows the truth spoken by the bird-borne Vishnu, and bears the mystery of the silence of the bull-borne Siva.

gaṅgarāṅmukha sūrisabhāguruṇā

guṇasañcaya ratnamahodadhinā |

2. गणराण्मुखसूरिसभागुरुणा, गुणसंचयरत्नमहोदधिना ।
पनगूढसहस्रकरेण यथा, तन्नुक्कञ्चुकगुप्तमहामहसा ॥ २ ॥

ghanagūḍhasahasra kareṇa yathā

tanukaṁcuka guptamahāmahasā | |2| |

He is the guru of an assembly of learned men beginning with Ganapati, he is a great repository of a wealth of virtues. Just as the thousand-rayed one (the sun) is hidden by a cloud, his true greatness is hidden by the garb of the body.

catureṇa calendriyanigrahaṇe

paṭunā parakīyaguṇagrahaṇe |

3. चतुरेणचलेन्द्रियनिग्रहणे, पटुनां परकीयगुणग्रहणे ।
छलवर्जितमौनसमाप्तिजुषा, बलवर्जितभीकरकामरुषा ॥ ३ ॥

chalavarjita maunasamādhijuṣā

balatarjita bhīkarakāmaruṣā | |3| |

Ingenious at defeating the roving senses, he is skillful in praising the merits of others. He delights in the peace of silence which is without deceit, and is the slayer of the strong, reviled, frightening passions.

jaṭaraṁ samaye paripūrayatā

kaṭhinaṁ vratamadritaṭe caratā |

jhaṣaketanaśāstra durāpahṛdā

kṛṣimātmavibodhavidau dadhatā ||4||

He fills his stomach only at the proper time, undertaking inflexible vows, he lives on the slope the mountain (Arunachala). His heart is unable to be won over by the arrows of Cupid (the God of Love). He is leading his devotees, and giving them the method for Self-Knowledge (Atma Vichara).

bhavabhīkaravārinidhiṁ taratā

karatāmarasena supātravatā |

svadṛśā'dhikaśītalakānti bhṛtā

bhyamaṅghrisarojajuṣāṁ haratā ||5||

He has crossed the fear producing ocean of wordly life. He has a hands as delicate as a lotus, which serve him as a bowl. His own gaze is unsurpassed in calmness and brightness, and he removes the fear of those who resort to his lotus feet.

namatām atibhaktimatām nidhinā

ghanatāpa vidhūnanasannidhinā |

yatidharmatatiṁ paripālayatā

paritaśca tamo vinivārayatā ||6||

He is a store-house of divine treasure for adoring devotees, his presence destroys dense misery. He maintains the duties of the ascetic, and he is preventing darkness all around.

phaṇināyakavarṇya guṇaughabhṛtā

bhaṇitīḥ priyasatyahitā bhaṇatā |

bahumānavaśādayatā sukhitām

avamānatater avidūnavatā ||7||

Having a flood of virtues able to be described only by Sesha, the leader of the serpents, he speaks words that are pleasing, beneficial and true. He is not governed by that happiness which is influenced by respect and honor (from others), nor does he have distress due to dishonor (from others).

4. जठरं समये परिपूरयता , कठिनं व्रतमद्रिते चरता ।
झषकेतनशस्त्रदुरापहृदा , कृषिमात्मविबोधविधौदधता ॥४॥

5. भवभीकरवारिनिधिंतरता , करतामरसेनसुपात्रवता ।
स्वदृशाधिकशीतलकान्तिभृता , भयमङ्घ्रिसरोजजुषांहरता ॥५॥

6. नमतामतिभक्तिमतांनिधिना , यनतापविधूननसन्निधिना ।
यतिधर्मततिं परिपालयता , परितश्चतमो विनिवारयता ॥६॥

7. फणिनायकवर्ण्यगुणौघभृता , भणितीःप्रियसत्यहिताश्रणता ।
बहुमानवशादयतासुखिता , मवमानततेरविदूनवता ॥७॥

yatinām-adhipena kuśāgra-lasan

matinā dhṛti-nāśita-citta-buvā|

laharīm pramadasya sadā vahatā

nihatāntara śātrava saṁhatinā||8||

४. यतिना मधिपेन कुशाग्रलस, न्मतिना धृतिनाशितचित्तभुवा ।
रुहरीं प्रमदस्य सदा वहता, निहतान्तरशात्रवसंहतिना ॥८॥

He is the Lord of Ascetics. With his sharp and brilliant intellect, he has with firmness destroyed the ego. He is always bearing a wave of joy, and he has killed the array of inner enemies (the six passions).

bhagavatpadam anyajanāsulabham

svaguṇair-adhigatya param jayatā|

mamatā-rahitena hitena satām

nihitena guṇaprabhuṇā hṛdaye||9||

९. भगवत्पदमन्यजनासुलभं, स्वगुणैरधिगत्य परं जयता ।
ममता रहितेन हितेन सतां, निहितेन गणप्रभुणा हृदये ॥९॥

Having transcended all by his own merits, he wins the supreme feet of the Lord, (which are) not easily accessible by others. He is free from the feeling of "mine" and is the friend of the virtuous. He is treasured at heart by the Lord of the Ganas, Ganapati.

dharaṇīdhara-jāṅkam-api tyajatā

dharaṇī-tala-vāsi-tamo dhutaye|

nara-veṣa-bhṛtā nagarandhrakṛtā

ramaṇena sanātham-idaṁ bhuvanam||10||

१०. धरणी धरजाङ्गमपित्यजता, धरणीतलवासितमो धुतये ।
नरवेषभृता नगरन्ध्रकृता, रामणेन सनाथमिदं भुवनम् ॥१०॥

Abandoning the lap of his Mother Parvati, he dwells on earth for the removal of darkness.

He is Skanda, having the appearance of a man. This world has found a Lord in Ramana!

Ulladu Narpadu

மங்கலம்

Mangalam

Uḷḷa-dala duḷḷa-vuṇar uḷḷadō vuḷḷa-poruḷ
Uḷḷa-laṟa vuḷḷattē uḷḷa-dāl — uḷḷa-menuṁ
Uḷḷa-poruḷ uḷḷalevan uḷḷattē uḷḷa-paḍi
Uḷḷadē uḷḷal uṇar-vāyē — uḷḷe

உள்ளதல துள்ளவுணர் வுள்ளதோ வுள்ளபொரு
ளுள்ளலற வுள்ளத்தே யுள்ளதா — லுள்ளமெனு
முள்ளபொரு ளுள்ளலெவ னுள்ளத்தே யுள்ளபடி
யுள்ளதே யுள்ள லுணர்வாயே — யுள்ளே

Could there be a being-consciousness existing apart from that which [eternally] is? Since that reality exists in the Heart, free of thought, who could meditate upon that reality, called the Heart? Know that to remain within the Heart, as it is, is truly to meditate [upon the Heart].

Maraṇa-baya mikkuḷa-vam makkaḷara ṇaga
Maraṇa-bava millā magēsan — chara-ṇamē
Sārvar-tāñ sārvoḍu-tāñ sāvutṭṛār sāveṇṇaṇ
Sārvarō sāvā davar

மரணபய மிக்குளவம் மக்களர னாக
மரணபவ மில்லா மகேசன் — சரணமே
சார்வர்தஞ் சார்வொடுதாஞ் சாவற்றூர் சாவெண்ணஞ்
சார்வரோ சாவா தவர்

The people who have a deep fear of death will, for their protection, take refuge at the Holy Feet of Lord Shiva, he is without both birth and death. In thus taking refuge in Him, they thus suffered their own death. For them, in this deathless state, will the thought of death remain?

(The above two Mangalam verses from Ulladu Narpadu are translated by Robert Butler.)

Akshara-Mana-Mālai

The Marital Garland of Letters

**Tarunārunamani kiranāvalinihar, taruma
ksharamana mahizhmālai
Terunādiyatiru vadiyār terumaral, teliyap
paravudal porulāha
Karunākaramuni Ramanāriyanuva, haiyinār
soliyadu gatiyāha
Arunāchalamena ahamēyarivodu, mazhvār
Sivanula hālvārē**

Arunāchala vararkētra, aksharamana mālaisātra
Karunākara ganapatiyē, karamarulik Kāppāyē

*Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva,
Arunāchala!
Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva,
Arunāchala!*

அருணாசல அக்ஷரமணமாலே

பாயிரம்

(விருத்தம்)

தருண நுணமணி கிரண வலிநிகர்
தரும க்ஷரமண மகிழ்மாலே
தெருண டியதிரு வடியார் தெருமரல்
தெளியப் பரவுதல் பொருளாகக்
கருண கரமுனி ரமண ரியனுவ
கையினுற் சொலியது கதியாக
வருண சலமென வகமே யறிவொடு
மாழ்வார் சிவனுல காள்வாரே.

– முருகனார்

காப்பு

அருணாசல வரற்கேற்ற வக்ஷரமண மாலேசாற்றக்
கருணாகர கணபதியே கரமருளிக் காப்பாயே.

நூல்

அருணா சலசிவ அருணா சலசிவ
அருணா சலசிவ அருணாசலா!
அருணா சலசிவ அருணா சலசிவ
அருணா சலசிவ அருணாசலா!

This joyful Marital Garland of Letters, which resembles a beam of the rays of the rising sun, was sung by the noble sage, Ramana, the ocean of compassion, with the object of removing the delusion of the devotees who sought his grace. Those who look upon it as their sole refuge will realize within themselves that they are Arunāchala and will reign in the world of Siva.

Gracious Ganapati with thy (loving) hand bless me, that I may make this marital garland of letters worthy of Sri Arunāchala, the bridegroom!

**1. Aru/nā/chala/mena
Aha/mē/ninaip/pavar
Aha/taivē/rarup/pāy
Arunā/chalā.**

1. அருணா சலமென வகமே நினைப்பவ
ரகத்தைவே ரறுப்பா யருணாசலா (அ)

(a) Arunachala! Thou dost root out the ego of those who meditate on Thee in the heart, Oh Arunachala!

(b) Arunachala! Thou dost root out the ego of those who dwell on their (spiritual) identity with Thee, Oh Arunachala!

**2. Azha/hu/sundaram/pōl
Aha/mum/nī/yumutru
Abhin/namā/yirup/pōm
Arunā/chalā.**

2. அழகுசந் தரம்போ லகமும் நீயுமுற்
றபின்னமா யிருப்போ மருணாசலா (அ)

May Thou and I be one and inseparable like *Azhagu* and *Sundara*, Oh Arunachala!

**3. Aham/buhum/dirt/tun
Aha/guhai/sira/yāy
Amar/vitta/den/kol
Arunā/chalā.**

3. அகம்புகுந் தீர்த்துன் னககுகை சிறையா
யமர்வித்த தென்கொ லருணாசலா (அ)

Entering (my) home and luring me (to Thine) why didst Thou keep me prisoner in Thy heart's cavern, Oh Arunāchala?

**4. Ā/ruk/kā/venai
Yān/danai/yahat/ridil
Aki/lam/pazhit/tidum
Arunā/chalā.**

4. ஆருக் காவெனை யாண்டனை யகற்றிடி
லகிலம் பழித்திடு மருணாசலா (அ)

Was it for Thy pleasure or for my sake Thou didst win me? If now Thou turn me away, the world will blame Thee, Oh Arunachala!

**5. Ip/pazhi/tap/punai
Ēn/ninaip/pit/tāy
Ini/yār/vidu/vār
Arunā/chalā.**

5. இப்பழி தப்புனை யேனினைப் பித்தா
யினியார் விடுவா ரருணாசலா (அ)

Escape this blame! Why didst thou then recall Thyself to me? How can I leave Thee now, Oh Arunachala?

**6. Īn/dridum/an/naiyil
Peri/darul/puri/vōy
Idu/vō/una/darul
Arunā/chalā.**

6. ஈன்றிடு மன்னையிற் பெரிதருள் புரிவோ
யிதுவோ வுனதரு ளருணாசலா (அ)

- (a) Kinder far art Thou than one's own mother. Is this then Thy all-kindness, Oh Arunachala?
 (b) Kinder indeed art Thou than one's own mother, such is thy love, Oh Arunachala!

7. **Unai/yē/māt/ri**
Ō/dā/dulat/tinmēl
Uru/diyā/yiru/pāy
Arunā/chalā.

7. உனையே மாற்றி யோடா துளத்தின்மே
 லுறுதியா யிருப்பா யருணைசலா

(அ)

- (a) Sit firmly in my mind, lest it elude Thee, Oh Arunachala!
 (b) Change not Thy nature and flee, but hold fast in my mind, Oh Arunachala!

8. **Ūr/sut/rulam/vidā**
Dunaik/kan/dadan/gida
Un/nazha/haik/kāt
Arunā/chalā.

8. ஊர்கற் றுளம்விடா துனைக்கண் டடங்கிட
 வுன்னழ கைக்காட் டருணைசலா

(அ)

- (a) Display Thy beauty, for the fickle mind to see Thee forever and to rest (in peace), Oh Arunachala!
 (b) The strumpet mind will cease to walk the streets if only she find Thee. Disclose thy beauty then and hold her bound, Oh Arunachala!
 (c) The mind by her unsteadiness prevents my seeking Thee and finding peace; (hold her and) grant me the vision of thy beauty, Oh Arunachala!

9. **Enai/yazhit/tip/pō**
Denaik/kala/vā/vidil
Idu/vō/ān/mai
Arunā/chalā.

9. எனையழித் திப்போ தெனைக்கல வாவிடி
 விதுவோ வாண்மை யருணைசலா

(அ)

After abducting me if now Thou dost not embrace me, where is Thy chivalry, Oh Arunachala?

10. **Ē/ninda/urak/kam**
Enaip/pirar/izhuk/ka
Idu/vunak/kazha/hō
Arunā/chalā.

10. ஏனிந்த வறக்க மெனைப்பிற ரிழுக்க
 விதுவுனக் கழகோ வருணைசலா

(அ)

Does it become Thee thus to sleep when I am outraged by others, Oh Arunachala?

11. **Aim/bulak/kal/var**
Ahat/tinil/puhum/bō
Dahat/tilnī/ilai/yō
Arunā/chalā.

11. ஐம்புலக் கள்வ ரகத்தினிற் புகும்போ
 தகத்தினீ யிலையோ வருணைசலா

(அ)

Even when the thieves of the five senses break in upon me, art Thou not still in my heart, Oh Arunachala?

12. **Oru/vanā/mun/nai**
Olit/tevar/varu/vār
Un/sū/dē/idu
Arunā/chalā.

12. ஒருவனா முன்னை யொளித்தெவர் வருவா
ருன்கு தேயிது வருணசலா

(அ)

One art Thou without a second; who then could dare elude Thee and come in? This is only Thy jugglery, Oh Arunachala!

Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!
Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!

13. **Ōn/kā/rap/porul**
Op/puyar/vil/lōy
Unai/yār/ari/vār
Arunā/chalā.

13. ஒங்கா ரப்பொரு ளொப்புயர் வில்லோ
யுனையா ரறிவா ரருணசலா

(அ)

Significance of *OM* unrivalled - unsurpassed! Who can comprehend Thee, Oh Arunachala?

14. **Ow/vaipōl/enak/kun**
Aru/lait/tan/denai
Ā/luva/dun/gadan
Arunā/chalā.

14. ஓளவைபோ லெனக்குன் னருளைத் தந்தெனை
யாளுவ துன்கட னருணசலா

(அ)

As (Universal) Mother, it is Thy duty to dispense Thy grace and save me, Oh Arunachala!

15. **Kan/nukkuk/kan/nāy**
Kan/nindrik/ka/nunaik
Kā/nuva/devar/pār
Arunā/chalā.

15. கண்ணுக்குக் கண்ணாய்க் கண்ணின்றிக் காணுனைக்
காணுவ தெவர்பா ரருணசலா

(அ)

(a) Who can ever find Thee? The eye of the eye art Thou, and without eyes Thou seest, Oh Arunachala! (b) Being the sight of the eye, even without eyes find me out Thyself. Who (but Thyself) can find out Thee, Oh Arunachala?

16. **Kān/tami/rumbu/pōl**
Kavarn/denai/vidā/mal
Kalan/denō/dirup/pāy
Arunā/chalā.

16. காந்த மிரும்புபோற் கவர்ந்தெனை விடாமற்
கலந்தெனோ டிருப்பா யருணசலா

(அ)

As a lode-stone attracts iron, magnetizing it and holding it fast, so do Thou to me, Oh Arunachala!

17. **Giri/yuru/vā/hiya**
Kiru/paik/kada/lē
Krupai/kūrn/daru/luvāy
Arunā/chalā.

17. கிரியுரு வாகிய கிருபைக் கடலே
கிருபைகூர்ந் தருளுவா யருணசலா

(அ)

(Unmoving) Hill, melting into a Sea of Grace, have mercy (on me) I pray, Oh Arunachala!

**18. Kīzh/mē/len/gum
Kila/roli/mani/yen
Kīzh/maiyap/pāzh/se
Arunā/chalā.**

18. கீழ்மே லெங்குங் கிளரொளி மணியென்
கீழ்மையைப் பாழ்செய் யருணைசலா (அ)

Fiery gem, shining in all directions, do Thou burn up my dross, Oh Arunachala!

**19. Kut/romut/rarut/tennai
Guna/māyp/panit/tāl
Guru/vuru/vā/yolir
Arunā/chalā.**

19. குற்றமுற் றறுத்தெனைக் குணமாய்ப் பணித்தாள்
குருவுரு வாயொளி ரருணைசலா (அ)

Shine as my Guru, making me free from faults and worthy of Thy Grace, Oh Arunachala!

**20. Kūr/vāt/kan/niyar
Kodu/mayir/padā/darul
Kūr/denāi/chērn/darul
Arunā/chalā.**

20. கூர்வாட் கண்ணியர் கொடுமையிற் படாதருள்
கூர்ந்தெனைச் சேர்ந்தரு ளருணைசலா (அ)

Bestowing your compassion and uniting with me, grant your grace so that I am not trapped by the wickedness of those with nets (beguiling speech) and sharp swords (cruelty in word and deed), Oh Arunachala!

**21. Ken/jiyum/van/jiyāyk
Kon/jamu/miran/gilai
An/jalēn/drē/yarul
Arunā/chalā.**

21. கெஞ்சியும் வஞ்சியாய்க் கொஞ்சமு மிரங்கிலை
யஞ்சலென் றேயரு ளருணைசலா (அ)

Though I beg, Thou art callous and dost not condescend. I pray Thee! Say to me 'Fear not!' Oh Arunachala!

**22. Kē/lā/dalik/kumum
Kē/dil/puha/zhaik
Kē/dusey/yā/darul
Arunā/chalā.**

22. கேளா தளிக்குமுன் கேடில் புகழைக்
கேடுசெய் யாதரு ளருணைசலா (அ)

Unasked Thou givest; this is thy imperishable fame. Do not belie Thy name, Oh Arunachala!

**23. Kai/yinir/kani/yun
Mey/rasan/kon/duva
Hai/veri/kola/varul
Arunā/chalā.**

23. கையினிற் கனியுன் மெய்ரசங் கொண்டு
கைவெறி கொளவரு ளருணைசலா (அ)

Sweet fruit within my hands, let me be mad with ecstasy, drunk with the bliss of Thy essence, Oh Arunachala!

**24. Kodi/yit/tadi/yaraik
Kol/lunaik/kat/tik
Kon/dengan/vāzh/vēn
Arunā/chalā.**

24. கொடியிட் டடியரைக் கொல்லுனைக் கட்டிக்
கொண்டெங் வாய்வே னருணைசலா (அ)

Blazoned as the devourer of Thy votaries, how can I survive who have embraced Thee, Oh Arunachala?

*Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!
Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!*

**25. Kō/pamil/gunat/tōy
Kuri/yā/yenaik/kolak
Kurai/yen/sey/dēn
Arunā/chalā.**

25. கோபமில் குணத்தோய் குறியா யெனைக்கொளக்
குறையென் செய்தே னருணைசலா (அ)

(a) Thou, unruffled by anger! What crime has marked me off (for Thy wrath), Oh Arunachala?
(b) Thou, unruffled by anger! What (austerities left) incomplete (in previous births) have won me Thy special favour, Oh Arunachala?

**26. Gau/tamar/pōt/rum
Karu/naimā/malai/yē
Kadaik/kanit/tāl/vāy
Arunā/chalā.**

26. கௌதமர் போற்றுங் கருணைமா மலையே
கடைக்கணித் தாள்வா யருணைசலா (அ)

Glorious Mountain of love, celebrated by Gautama, rule me with Thy gracious glance, Oh Arunachala!

**27. Saka/lamum/vizhun/gum
Kadi/roli/yina/mana
Jala/jama/lart/tiyi
d' Arunā/chalā.**

27. சகலமும் விழுங்குங் கதிரொளி யினமன
சலச மலர்த்தியி டருணைசலா (அ)

Dazzling Sun that swallowest up all the universe in Thy rays, with Thy light open the lotus of my heart I pray, Oh Arunachala!

**28. Sāp/pā/dun/nai
Chārn/duna/vā/yān
Sān/tamāyp/pō/van
Arunā/chalā.**

28. சாப்பா டுன்னைச் சார்ந்துண வாயான்
சாந்தமாய்ப் போவ னருணைசலா (அ)

(a) Let me, Thy prey, surrender unto Thee and be consumed, and so have peace, Oh Arunachala!
(b) I came to feed on Thee, but Thou hast fed on me; now there is peace, Oh Arunachala!

29. **Chit/tangu/lirak/kadi
Rat/tamvait/tamu/davā
Yait/tira/arul/mati
Arunā/chalā.**

29. சித்தங் குளிரக்கதி ரத்தம்வைத் தமுதவா
யைத்திற வருண்மதி யருணைசலா

(அ)

O Moon of Grace, with Thy (cool) rays as hands, open (within me) the ambrosial orifice and let my heart rejoice, Oh Arunachala!

30. **Sī/raja/zhit/tunir
Vā/namā/chey/darut
Sī/raiya/lit/tarul
Arunā/chalā.**

30. சீரை யழித்துநிர் வாணமாச் செய்தருட்
சீரை யளித்தரு ளருணைசலா

(அ)

Tear off these robes, expose me naked, then robe me with Thy love, Oh Arunachala!

31. **Sukak/kadal/pon/ga
Sol/lunar/vadan/ga
Sum/mā/porun/didang'
Arunā/chalā.**

31. சுகக்கடல் பொங்கச் சொல்லுணர் வடங்கச்
சும்மா பொருந்திடங் கருணைசலா

(அ)

There (in the heart) rest quiet! Let the sea of joy surge, speech and feeling cease, Oh Arunachala!

32. **Sū/dusey/den/nai
Sō/diya/dini/yun
Jō/diyu/ruk/kātt'
Arunā/chalā.**

32. சூதுசெய் தென்னைச் சோதியா தினியுன்
சோதி யுருக்காட் டருணைசலா

(அ)

Do not continue to deceive and prove me; disclose instead Thy transcendental self, Oh Arunachala!

33. **Sep/padi/vid/dhaikat-
Rip/padi/mayak/kuvit
Turup/padu/viddhai/kātt'
Arunā/chalā.**

33. செப்படி வித்தைகற் றிப்படி மயக்குவிட்
டுருப்படு வித்தைகாட் டருணைசலா

(அ)

Vouchsafe the knowledge of eternal life that I may learn the glorious primal wisdom, and shun the delusion of this world, Oh Arunachala!

34. **Sē/rā/yenin/mey
Nī/rā/yuru/hikkan
Nī/rāt/razhi/vēn
Arunā/chalā.**

34. சேரா யெனின்மெய் நீரா யுருகிக்கண்
ணீராற் றழிவே னருணைசலா

(அ)

Unless Thou embrace me, I shall melt away in tears of anguish, Oh Arunachala!

35. **Chai/yenat/tal/lir**
Sey/vinai/sudu/malāl
Uy/vahai/yē/durai
Arunā/chalā.

35. சையெனத் தள்ளிற் செய்வினை சுடுமலா
லுய்வகை யேதுரை யருணைசலா

(அ)

If spurned by Thee, alas! What rests for me but the torment of my *prarabdha*? What hope is left for me, Oh Arunachala?

36. **Solla/du/soli/nī**
Sol/lara/nil/lendru
Sum/mā/virun/dāy
Arunā/chalā.

36. சொல்லாது சொலிநீ சொல்லற நில்லென்று
சும்மா விருந்தா யருணைசலா

(அ)

In silence Thou saidst, 'Stay silent!' and Thyself stood silent, Oh Arunachala!

Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!
Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!

37. **Sōm/biyāy/chum/mā**
Sukha/mun/duran/gidil
Sol/vē/ren/gati
Arunā/chalā.

37. சோம்பியாய்ச் சும்மா சுகமுண் டுறங்கிடிற்
சொல்வே றென்கதி யருணைசலா

(அ)

Happiness lies in peaceful repose enjoyed when resting in the Self. Beyond speech indeed is Thy prowess resting in the self. Beyond speech indeed is this my State, Oh Arunachala!

38. **Sau/riyan/gāt/tinai**
Chazhak/katra/den/drē
Chali/yā/dirun/dāy
Arunā/chalā.

38. செளரியங் காட்டினை சமுக்கற்ற தென்றே
சலியா திருந்தா யருணைசலா

(அ)

(a) Thou didst display Thy prowess once, and the perils ended, return to Thy repose, Oh Arunachala!

(b) Sun! Thou didst sally forth and (the siege of) illusion was ended. Then didst thou shine motionless (alone), Oh Arunachala!

39. **Jñāma/liyir/kē/dā**
Nā/nen/nuru/diyā
Nā/dinin/nuru/vēn
Arunā/chalā.

39. ஞமலியிற் கேடா நானென் னுறுதியா
னாடிநின் னுறுவே னருணைசலா

(அ)

(a) (A dog can scent out its master); am I then worse than a dog? Steadfastly I will seek Thee and regain Thee, Oh Arunachala!

(b) Worse than a dog (for want of scent), how can I track Thee (to Thy home), Oh Arunachala?

40. **Jñā/namil/lā/dun**
Nā/sayāt/ralar/vara
Jñā/nan/derit/tarul
Arunā/chalā.

40. ஞானமில் லாதுன் ஞசையாற் றளர்வற
ஞானந் தெரித்தரு ளருணசலா (அ)

Grant me wisdom, I beseech Thee, so that I may not pine for love of Thee in ignorance, Oh Arunachala!

41. **Jñimi/rupō/nī/yum**
Malarn/dilai/yen/drē
Nēr/nin/dranai/yenn'
Arunā/chalā.

41. ஞிமிறுபோ னீயு மலர்ந்திலை யென்றே
நேர்நின் றனையென் னருணசலா (அ)

(a) Not finding the flower open, Thou didst stay, no better than a (frustrated) bee, Oh Arunachala!

(b) (In sunlight the lotus blossoms), how then couldst Thou, the Sun of suns, hover before me like a flower bee, saying 'Thou art not yet in blossom', Oh Arunachala?

42. **Tat/tuvan/deri/yā**
Dat/tanai/yut/rāy
Tat/tuva/midu/venn'
Arunā/chalā.

42. தத்துவந் தெரியா தத்தனை யுற்றாய்
தத்துவ மிதுவென் னருணசலா (அ)

(a) Thou hast realized the Self even without knowing that it was the truth. It is the truth itself! Speak (thus if it be so), Oh Arunachala!

(b) Thou art the subject of most diverse views, yet art Thou not this only, Oh Arunachala?

(c) Not known to the *tattvas*, tough Thou art theit being! What does this mean, Oh Arunachala?

43. **Tā/nē/tā/nē**
Tat/duva/mida/nai
Tā/nē/kāt/tuvāy
Arunā/chalā.

43. தானே தானே தத்துவ மிதனைத்
தானே காட்டுவா யருணசலா (அ)

(a) That each one is reality itself, Thou wilt of thy nature show, Oh Arunachala!

(b) Reveal Thyself! Thou only art reality, Oh Arunachala!

(c) 'Reality is nothing but the self'; is this not all thy message, Oh Arunachala?

44. **Tirum/biya/han/danai**
Dina/mahak/kan/kān
Teri/yumen/dranai/yenn'
Arunāchala.

44. திரும்பி யகந்தனைத் தினமகக் கண்காண்
டெரியுமென் றனையென் னருணசலா (அ)

'Look within, ever seeking the self with the inner eye, then will (It) be found.' Thus didst Thou direct me, beloved Arunachala!

45. **Dī/ramil/lahat/til**
Tē/diyun/dranai/yān
Tirum/bavut/rē/narul
Arunā/chalā.

45. தீரமி லகத்திற் றேடியுந் தனையான்
றிரும்பவுற் றேனரு ளருணைசலா (அ)

(a) Seeking Thee within but weakly, I came back (unrewarded). Aid me, Oh Arunachala!
(b) Weak though my effort was, by Thy grace I gained the Self, Oh Arunachala!
(c) Seeking Thee in the infinite Self, I regained my own (Self), Oh Arunachala!

46. **Tup/pari/vil/lā**
Ip/pirap/pen/payan
Op/pida/vā/yēn
Arunā/chalā.

46. துப்பறி வில்லா விப்பிறப் பென்பய
னெப்பிட வாயே னருணைசலா (அ)

What value has this birth without knowledge born of realization? It is not even worth speaking about, Oh Arunachala!

47. **Tūy/mana/mozhi/yar**
Tō/yumum/mey/yaham
Dō/yave/yaru/len
Arunā/chalā.

47. தூய்மன மொழியர் தோயுமுன் மெய்யகந்
தோயவே யருளென் னருணைசலா (அ)

(a) Let me dive into the true Self, wherein merge only the pure in mind and speech, Oh Arunachala!
(b) I, by thy grace, am sunk in Thy self, wherein merge only those divested of their minds and thus made pure, Oh Arunachala!

48. **Dey/vamen/drun/nai**
Chā/ravē/yen/nai
Chē/ravo/zhit/tāy
Arunā/chalā.

48. தெய்வமென் றுன்னைச் சாரவே யென்னைச்
சேர வொழித்தா யருணைசலா (அ)

When I took shelter under Thee as my one God, thou didst destroy me altogether, Oh Arunachala!

Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!
Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!

49. **Tē/dā/dut/ranal**
Tiru/varul/nidhi/yahat
Tiyak/kam/dirt/tarul
Arunā/chalā.

49. தேடா துற்றநற் றிருவரு ணிதியகத்
தியக்கந் தீர்த்தரு ளருணைசலா (அ)

Treasure of benign and holy Grace found without seeking, steady my wandering mind, Oh Arunachala!

50. **Dai/riya/mō/dumum**
Mey/yaham/nā/dayān
Tat/tazhin/dē/narul
Arunā/chalā.

50. தைரிய மோடுமுன் மெய்யக நாடயான்
றட்டழிந் தேனரு ளருணைசலா (அ)

On seeking Thy real self with courage, my raft capsized and the waters came over me. Have mercy on me, Arunachala!

51. **Thot/tarul/kai/mey**
Kat/tidā/yeni/liyān
Nat/tamā/vē/narul
Arunā/chalā.

51. தொட்டருட் கைமெய் கட்டிடா யெனிலியா
னட்டமா வேனரு ளருணைசலா (அ)

(a) Unless Thou extend Thy hand of grace in mercy and embrace me, I am lost, Oh Arunachala!
(b) Enfold me body to body, limb to limb, or I am lost, Oh Arunachala!

52. **Dō/damil/nī/ahat**
Tō/dondri/en/drumsan
Dō/damon/drida/varul
Arunā/chalā.

52. தோடமி னீயகத் தோடொன்றி யென்றுஞ்சந்
தோடமொன் றிடவரு ளருணைசலா (அ)

Oh undefiled, abide Thou in my heart so that there may be everlasting joy, Oh Arunachala!

53. **Nahaik/kida/milai/nin**
Nāk/diya/venai/yarul
Nahai/yittup/pār/nī
Arunā/chalā.

53. நகைக்கிட மிலைநின் னுடிய வெனையரு
ணகையிட்டுப் பார்நீ யருணைசலா (அ)

(a) Mock me not, who seek Thy protection! Adorn me with thy grace and then regard me, Oh Arunachala!
(b) Smile with grace and not with scorn on me, who come to Thee for refuge, Oh Arunachala!

54. **Nā/nilai/nā/dida**
Nā/nā/yon/drini
Tā/nuvā/nin/dranai
Arunā/chalā.

54. நாணிலை நாடிட நாடு யொன்றிநீ
தாணுவா நின்றனை யருணைசலா (அ)

(a) When I approached, Thou didst not bend; Thou stoodst unmoved, at one with me, Oh Arunachala!
(b) Does it not shame Thee to stand there like a post,, (leaving me) to find thee by myself, Oh Arunachala?

55. **Nin/ner/erit/tenai**
Nī/rāk/kidu/mun
Nin/narul/mazhai/pozhi
Arunā/chalā.

55. நின்னெரி யெரித்தெனை நீரூக் கிடுமுன்
னின்னருண் மழைபொழி யருணைசலா (அ)

Rain Thy mercy on me, ere Thy knowledge burn me to ashes, Oh Arunachala!

56. **Nī/nā/narap/puli**
Nidan/gali/maya/mā
Nin/dridu/nilai/yarul
Arunā/chalā.

56. நீநா னறப்புலி நிதங்கள் மயமா
நின்றிடு நிலையரு ளருணைசலா (அ)

Unite with me to destroy (our separate identities as) Thou and me, and bless me with the state of ever vibrant joy, Oh Arunachala!

57. **Nun/nuru/vunai/yān**
Vin/nuru/nan/nida
En/nalai/yiru/mendr'
Arunā/chalā.

57. நுண்ணுரு வுனையான் விண்ணுரு நண்ணிட
வெண்ணலை யிறுமென் றருணைசலா (அ)

(a) When shall I (become) like the ether and reach Thee, subtle of being, that the tempest of thoughts may end, Oh Arunachala!

(b) When will waves of thought cease to rise? When shall I reach Thee, subtler than the subtle ether, Oh Arunāchala?

58. **Nū/lari/vari/yāp**
Pē/daiya/nen/dran
Mā/lari/varut/tarul
Arunā/chalā.

58. நூலறி வறியாப் பேதைய னென்றன்
மாலறி வறுத்தரு ளருணைசலா (அ)

(a) I am a simpleton devoid of learning. Do thou dispel illusion, Oh Arunachala!

(b) Destroy Thou my wrong knowledge, I beseech Thee, for I lack the knowledge which the scriptures lead to, Oh Arunachala!

59. **Nek/kunek/kuru/hiyān**
Puk/kida/unaip/puhal
Nak/kanā/nin/dranai
Arunā/chalā

59. நெக்குநெக் குருகியான் புக்கிட வுனைப்புக
னக்கனா நின்றனை யருணைசலா (அ)

When I melted away and entered Thee, my refuge, (I found) Thee standing naked (like the famous *Digambara*)! Oh Arunachala!

60. **Nē/sami/lenak/kun**
Ā /saiyaik/kāt/tinī
Mō/sanje/yā/darul
Arunā/chalā.

60. நேசமி லெனக்குன் னையைக் காட்டிநீ
மோசஞ் செயாதரு ளருணைசலா (அ)

In my unloving self Thou didst create a passion for Thee, therefore forsake me not, Oh Arunachala!

Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!
Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!

61. Nain/dazhi/kani/yāl
Nala/nilai/padat/til
Nā/diyut/kol/nalam
Arunā/chalā.

61. நைந்தழி கனியா னலனிலை பதத்தி
ஞடியுட் கொள்நல மருணைசலா (அ)

(a) Fruit shrivelled and spoilt is worthless; take and enjoy it ripe, Oh Arunachala!
(b) I am not (like) a fruit which is overripe and spoilt; draw me, then, into the inmost recess (of the heart) and fix me in eternity, Oh Arunachala!

62. Non/didā/dun/dranait
Tan/denaik/kon/dilai
An/daka/nī/yenakk'
Arunā/chalā.

62. நொந்திடா துன்றனைத் தந்தெனைக் கொண்டிலை
யந்தக னீயெனக் கருணைசலா (அ)

(a) Hast Thou not bartered cunningly Thyself for me (for my individuality is lost)? Oh, Thou art death to me, Arunachala!
(b) Hast thou not bartered happily Thyself for me (giving all and taking nothing)? Art thou not blind, Oh Arunāchala?

63. Nōk/kiyē/karu/dimey
Tāk/kiyē/pak/kuvam
Ā k/kinī/ān/darul
Arunā/chalā.

63. நோக்கியே கருதிமெய் தாக்கியே பக்குவ
மாக்கிநீ யாண்டரு ளருணைசலா (அ)

Regard me! Take thought of me! Touch me! Mature me! Make me one with Thee, Oh Arunachala!

64. Pat/rimāl/vidan/dalai
Ut/riru/muna/marul
Pat/rida/varul/puri
Arunā/chalā.

64. பற்றிமால் விடந்தலை யுற்றிறு முனமருள்
பற்றிட வருள்புரி யருணைசலா (அ)

Grant me Thy grace ere the poison of delusion grips me and, rising to my head, kills me, Oh Arunachala!

65. Pärt/tarul/mā/larap
Pärt/tilai/yeni/larul
Pā/runak/kār/solvar
Arunā/chalā.

65. பார்த்தருண் மாலறப் பார்த்திலை யெனினருள்
பாருனக் கார்சொல்வ ரருணைசலா (அ)

Thyself regard me and dispel illusion! Unless Thou do so who can intercede with Grace itself made manifest, Oh Arunachala?

66. **Pit/tuvit/tunai/nēr**
Pit/tanāk/kinai/yarul
Pit/tam/teli/marund'
Arunā/chalā.

66. பித்துவிட் டுனைநேர் பித்தனாக் கிளையருள்
பித்தந் தெளிமருந் தருணைசலா (அ)

With madness for thee thou hast freed me from madness (for the world); grant me now the cure of all madness, Oh Arunachala!

67. **Bī/diyil/lunai/chār**
Bī/diyil/lenai/chēr
Bī/diyun/dranak/kēn
Arunā/chalā.

67. பீதியி லுனைச்சார் பீதியி லெனைச்சேர்
பீதியுன் றனக்கே னருணைசலா (அ)

Fearless I seek Thee, Fearlessness Itself! How canst Thou fear to take me, Oh Arunachala?

68. **Pul/lari/vē/durai**
Nal/lari/vē/durai
Pul/lida/vē/yarul
Arunā/chalā.

68. புல்லறி வேதுரை நல்லறி வேதுரை
புல்லிட வேயரு ளருணைசலா (அ)

Where is (my) ignorance of (Thy) wisdom, if I am blessed with union to Thee, Oh Arunachala?

69. **Bū/mana/mā/manam**
Pū/rana/manan/golap
Pū/rana/mana/marul
Arunā/chalā.

69. பூமண மாமனம் பூரண மணங்கொளப்
பூரண மணமரு ளருணைசலா (அ)

(a) My mind has blossomed, (then) scent it with Thy fragrance and perfect it, Oh Arunachala!
(b) Espouse me, I beseech Thee, and let this mind, now wedded to the world, be wedded to perfection, Oh Arunachala!

70. **Peyar/ninait/tida/vē**
Pidit/tizhut/tanai/yun
Peru/maiya/rari/vār
Arunā/chalā.

70. பெயர்நினைத் திடவே பிடித்திழுத் தனையுன்
பெருமையா ரறிவா ரருணைசலா (அ)

Mere thought of Thee has drawn me to Thee, and who can gauge Thy glory (in Itself), Oh Arunāchala?

71. **Pēyt/tanam/vida/vidāp**
Pē/yāp/pidit/tenaip
Pē/yanāk/kinai/yen
Arunā/chalā.

71. பேய்த்தனம் விடவிடாப் பேயாப் பிடித்தெனைப்
பேயனாக் கிளையென் னருணைசலா (அ)

Thou hast possessed me, unexorcizable spirit! and made me mad (for Thee), that I may cease to be a ghost (wandering in the world), Oh Arunachala!

72. **Pain/godi/yā/nān**
Pat/rindri/vā/dāmal
Pat/trukko/dāyk/kā
Arunā/chalā.

72. பைங்கொடி யாநான் பற்றின்றி வாடாமற்
பற்றுக்கோ டாய்க்கா வருணசலா (அ)

Be Thou my stay and my support lest I droop helpless like a tender creeper, Oh Arunachala!

Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!
Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!

73. **Podi/yāl/mayak/kiyen**
Bō/dhataip/parit/tun
Bō/dhattaik/kat/tinai
Arunā/chalā.

73. பொடியான் மயக்கியென் போதத்தைப் பறித்துன்
போதத்தைக் காட்டினை யருணசலா (அ)

Thou didst benumb (my faculties) with stupefying power, then rob me of my understanding and reveal the knowledge of Thy Self, Oh Arunachala!

74. **Pōk/kum/vara/vumil**
Podu/veli/yini/larul
Pō/rat/tan/gātt'
Arunā/chalā.

74. போக்கும் வரவுமில் பொதுவெளி யினிலருட்
போராட் டங்காட் டருணசலா (அ)

Show me the warfare of Thy grace in the open field where there is no coming and going, Oh Arunachala!

75. **Bau/dika/mā/mudal**
Pat/ratru/nā/lumun
Bavi/sukkan/dura/varul
Arunā/chalā.

75. பௌதிக மாமுடற் பற்றற்று நாளுமுன்
பவிசுகண் டுறவரு ளருணசலா (அ)

Unattached to the physical frame composed of the (five) Elements, let me forever repose happy in the sight of Thy splendour, Oh Arunachala!

76. **Malai/marun/dida/nī**
Malait/tida/vō/varul
Malai/marun/dā/yolir
Arunā/chalā.

76. மலைமருந் திடநீ மலைத்திட வோவருண்
மலைமருந் தாயொளி ரருணசலா (அ)

Thou hast administered the medicine of confusion to me, so must I be confounded! Shine Thou as grace, the cure of all confusion, Oh Arunachala!

77. **Mā/nangon/duru/pavar**
Mā/natai/yazhit/tabhi
Mā/namil/lā/dolir
Arunā/chalā.

77. மானங்கொண் டுறுபவர் மானத்தை யழித்தபி
மானமில் லாதொளி ரருணசலா (அ)

Shine Thou selfless, sapping the pride of those who boast of their free will, Oh Arunachala!

78. **Min/jidil/ken/jidum**
Kon/java/riva/niyān
Van/jiyā/daru/lennai
Arunā/chalā.

78. மிஞ்சிடிற் கெஞ்சிடுங் கொஞ்ச வறிவனியான்
வஞ்சியா தருளெனை யருணைசலா (அ)

I am a fool who prays only when overwhelmed (by misery), yet disappoint me not, Oh Arunachala!

79. **Mihā/ma/ni'/lāmal**
Mā/kāt/ralai/kalam
Ā hā/mal/kāt/tarul
Arunā/chalā.

79. மீகாம னில்லாமன் மாகாற் றலைகல
மாகாமற் காத்தரு ளருணைசலா (அ)

Guard me lest I flounder storm-tossed like a ship without helmsman, Oh Arunachala!

80. **Mudi/yadi/kā/nā**
Mudi/vidut/tanai/nēr
Mudi/vidak/kada/nilaiy'
Arunā/chalā.

80. முடியடி காண முடிவிடுத் தனைநேர்
முடிவிடக் கடனிலை யருணைசலா (அ)

Thou hast cut the know which hid the vision of Thy head and foot (the limitless Self). Motherlike, shouldst thou not complete Thy task, Oh Arunachala?

81. **Mūk/kilan/mun/gāttum**
Muku/ramā/hā/denait
Tūk/kiya/nain/darul
Arunā/chalā.

81. மூக்கிலன் முன்காட்டு முகுரமா காதெனைத்
தூக்கி யணைந்தரு ளருணைசலா (அ)

Be not (like) a mirror held up to a noseless man, but raise me (from my lowness) and embrace me, Oh Arunachala!

82. **Mey/yahat/tin/mana**
Men/mana/ranai/yilnām
Mey/kalan/dida/varul
Arunā/chalā.

82. மெய்யகத் தின்மன மென்மல ரணையின
மெய்கலந் திடவரு ளருணைசலா (அ)

Let us embrace upon the bed of tender flowers, which is the mind, within the room of the body (or the ultimate truth), Oh Arunachala!

83. **Mēn/mēl/tāzhn/didum**
Mel/liyar/chērn/dunī
Mēn/maiut/ranai/yen
Arunā/chalā.

83. மேன்மேற் றுழந்திடு மெல்லியர்ச் சேர்ந்துநீ
மேன்மையுற் றனையென் னருணைசலா (அ)

How is it that Thou hast become famous from Thy constant union with the poor and humble, Oh Arunachala?

84. **Mai/maya/nit/tarul**
Mai/yinā/luna/dun
Mai/vasa/māk/kinai
Arunā/chalā.

84. மைமய னீத்தருண் மையினு லுனதுண்
மைவச மாக்கினை யருணசலா (அ)

Thou hast removed the blindness of ignorance with the unguent of Thy grace, and made me truly Thine, Oh Arunachala!

Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!
Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!

85. **Mot/taiya/dit/tenai**
Vet/tave/liyi/nī
Nat/tamā/dinai/yen
Arunā/chalā.

85. மொட்டை யடித்தெனை வெட்ட வெளியினீ
நட்டமா டினையென் னருணசலா (அ)

Thou didst shave clean my head (and I was lost to the world), then Thou didst (show Thyself) dancing in transcendent space, Oh Arunachala!

86. **Mō/han/tavirt/tun**
Mō/hamā/vait/tumen
Mō/handī/rā/yen
Arunā/chalā.

86. மோகந் தவிர்த்துண் மோகமா வைத்துமென்
மோகந்தீ ராயென் னருணசலா (அ)

(a) Though Thou hast lossed me from the mists of error and made me mad for Thee, why hast Thou not yet freed me from illusion, Oh Arunachala?

(b) Though Thou hast detached me from the world and made me cleave to Thee, Thy passion for me has not cooled, Oh Arunachala!

87. **Mau/niyāy/kar/pōl**
Mala/rā/dirun/dāl
Mau/namil/dā/mō
Arunā/chalā.

87. மௌனியாய்க் கற்போன் மலரா திருந்தான்
மௌனமி தாமோ வருணசலா (அ)

Is it true silence to rest like a stone, inert and unexpansive, Oh Arunachala?

88. **Yava/nen/vā/yil**
Man/ninai/yat/ti
En/bizhaip/pozhit/tad'
Arunā/chalā.

88. யவனென் வாயின் மண்ணினை யட்டி
யென்பிழைப் பொழித்த தருணசலா (அ)

Who was it that threw mud to me for food and robbed me of my livelihood, Oh Arunachala?

89. **Yā/ruma/riyā/den**
Mati/yinai/marut/ti
Evar/kolai/kon/dad'
Arunā/chalā.

89. யாருமறி யாதென் மதியினை மருட்டி
யெவர்கொனை கொண்ட தருணைசலா (அ)

Unknown to all, stupefying me, who was it that ravished my soul, Oh Arunachala?

90. **Rama/nanem/drurait/tēn**
Rō/shango/lā/denai
Ramit/tida/cheya/vā
Arunā/chalā.

90. ரமணென் றுரைத்தேன் ரோசங் கொளாதெனை
ரமித்திடச் செயவா வருணைசலா (அ)

I spoke Thus to Thee, because Thou art my Lord; be not offended but come and give me happiness, Oh Arunachala!

91. **Rāp/paha/lil/lā**
Veru/veli/vit/til
Ramit/tidu/vōm/vā
Arunā/chalā.

91. ராப்பக லில்லா வெறுவெளி வீட்டில்
ரமித்திடு வோம்வா வருணைசலா (அ)

Let us enjoy one another in the house of open space, where there is neither night nor day, Oh Arunachala!

92. **Lat/chiyam/vait/tarul**
As/tiram/vit/tenai
Bat/chittāy/prā/nanōd'
Arunā/chalā.

92. லட்சியம் வைத்தரு ளஸ்திரம் விட்டெனைப்
பட்சித்தாய் பிராணனே டருணைசலா (அ)

Thou didst take aim (at me) with darts of love and then devoured me alive, Oh Arunachala!

93. **Lā/bhanī/iha/para**
Lā/bhamil/lenai/yutru
Lā/bhamen/nut/ranai
Arunā/chalā.

93. லாபநீ யிகபர லாபமி லெனையுற்று
லாபமென் னுற்றனை யருணைசலா (அ)

Thou art the primal being, whereas I count not in this nor in the other world. What didst thou gain then by my worthless self, Oh Arunachala?

94. **Varum/badi/soli/lai**
Van/den/padi/yala
Varun/didun/tala/vidhi
Arunā/chalā.

94. வரும்படி சொலிலை வந்தென் படியள
வருந்திடுன் றலைவிதி யருணைசலா (அ)

Didst Thou not call me in? I have come in. Now measure out for me (my maintenance is now Thy burden). Hard is Thy lot, Oh Arunachala!

95. **Vā/ven/draham/bukkun**
Vāzh/varu/landrē/yen
Vāzh/vizhan/dē/narul
Arunā/chalā.

95. வாவென் றகம்புக்குன் வாழ்வரு ளன்றேயென்
வாழ்விழந் தேனரு ளருணைசலா (அ)

The moment Thou didst welcome me, didst enter into me and grant me Thy divine life, I lost my individuality, Oh Arunachala!

96. **Vit/tidil/kat/tamām**
Vit/tida/dunai/yuyir
Vit/tida/arul/puri
Arunā/chalā.

96. விட்டிடிற் கட்டமாம் விட்டிடா துனையுயிர்
விட்டிட வருள்புரி யருணைசலா (அ)

Bless me that I may die without losing hold of Thee, or miserable is (my fate), Oh Arunachala!

Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!
Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!

97. **Vī/duvit/tirt/tula**
Vīdu/pukkup/pai/yavun
Vī/dukāt/tinai/yarul
Arunā/chalā.

97. வீடுவிட் டீர்த்துள வீடுபுக்குப் பையவுன்
வீடுகாட் டினையரு ளருணைசலா (அ)

From my home Thou didst entice me, then stealing into my heart didst draw me gently into Thine, (such is) Thy grace, Oh Arunachala!

98. **Veli/vittēn/un/seyal**
Verut/tidā/dun/narul
Veli/vit/tenaik/kā
Arunā/chalā.

98. வெளிவிட்டே னுன்செயல் வெறுத்திடா துன்னருள்
வெளிவிட் டெனைக்கா வருணைசலா (அ)

I have betrayed Thy (secret) workings. Be not offended! Show me Thy grace now openly and save me, Oh Arunachala!

99. **Vē/dān/tat/tē**
Vē/rara/vilan/gum
Vē/dap/poru/larul
Arunā/chalā.

99. வேதாந் தத்தே வேறற விளங்கும்
வேதப் பொருளரு ளருணைசலா (அ)

Grant me the essence of the Vedas, which shine in the *Vedantas*, one without a second, Oh Arunachala!

100. **Vai/dalai/vāzht/tā**
Vait/tarul/kudi/yā
Vait/tenai/vidā/darul
Arunā/chalā.

100. வைதலை வாழ்த்தா வைத்தருட் குடியா
வைத்தெனை விடாதரு ளருணைசலா (அ)

- (a) Even my slanders, treat as my praise and guard me forever as Thine own, I pray, Oh Arunachala!
 (b) Let even slander be as praise to me, and guard me forever as Thine own, Oh Arunachala!
 (c) Place (Thy hand) upon my head! Make me partaker of Thy grace! Do not abandon me, I pray, Oh Arunachala!

101. **Am/buvil/ā/lipōl**
An/buru/vuni/lenai
An/bāk/karait/tarul
Arunā/chalā.

101. அம்புவி லாலிபோ லன்புரு வுனிலெனை
 யன்பாக் கரைத்தரு ளருணைசலா (அ)

As snow in water, let me melt as love in Thee, Who art love itself, Oh Arunachala!

102. **Aru/naiyen/drenna/yān**
Arut/kanni/pattē/nun
Arul/valai/tappu/mō
Arunā/chalā.

102. அருணையென் றெண்ணயா னருட்கண்ணி பட்டேனுன்
 னருள்வலை தப்புமோ வருணைசலா (அ)

I had but thought of Thee as Aruna, and lo! I was caught in the trap of Thy grace! Can the net of Thy grace ever fail, Oh Arunachala?

103. **Chin/dit/tarul/pada**
Chilan/dipōl/kat/ti
Chirai/yit/tun/danai
Arunā/chalā.

103. சிந்தித் தருட்படச் சிலந்திபோற் கட்டிச்
 சிறையிட் டுண்டனை யருணைசலா (அ)

Watching like a spider to trap (me in the web of Thy) grace, Thou didst entwine me and when imprisoned feed upon me, Oh Arunachala!

104. **An/bodun/nā/mangēl**
An/bardam/an/baruk
Kan/banā/yida/varul
Arunā/chalā.

104. அன்பொடுன் னுமங்கே ளன்பர்த மன்பருக்
 கன்பனா யிடவரு ளருணைசலா (அ)

Let me be the votary of the votaries of those who hear Thy name with love, Oh Arunachala!

105. **En/bōlum/dī/narai**
In/burak/kāt/tunī
En/nālum/vāzhn/darul
Arunā/chalā.

105. என்போலுந் தீனரை யின்புறக் காத்துநீ
 யெந்நாளும் வாழ்ந்தரு ளருணைசலா (அ)

Shine Thou forever as the loving saviour of helpless suppliants like myself, Oh Arunachala!

106. **En/buru/han/bardam**
In/sorkot/sevi/yumen
Pun/mozhi/kola/varul
Arunā/chalā.

106. என்புரு கன்பர்த மின்சொற்கொள் செவியுமென்
புன்மொழி கொளவரு ளருணசலா (அ)

Familiar to Thine ears are The sweet songs of votaries who melt to the very bones with love for Thee, yet let my poor strains also be acceptable, Oh Arunachala!

107. **Poru/maiām/bhū/dara**
Pun/solai/nan/solāp
Porut/taru/lish/tambin
Arunā/chalā.

107. பொறுமையாம் பூதர புன்சொலை நன்சொலாப்
பொறுத்தரு ளிஷ்டம்பின் னருணசலா (அ)

Hill of patience, bear with my foolish words, (regarding them) as hymns of joy or as Thou please, Oh Arunachala!

108. **Mā/laiya/lit/taru**
Nā/chala/rama/nayen
Mā/laiya/nin/darul
Arunā/chalā.

108. மாலை யளித்தரு ணசல ரமணவென்
மாலை யணிந்தரு ளருணசலா (அ)

Oh Arunachala! My Loving Lord! Throw Thy garland (about my shoulders) wearing Thyself this one (strung) by me, Arunachala!

Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!
Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala Siva, Arunāchala!

Aru/nā/chalam/vāzhi
Anbar/kalum/vāzhi
Aksha/ramana/mālai/vāzhi

அருண சலசிவ அருண சலசிவ
அருண சலசிவ அருணசலா!
அருண சலசிவ அருண சலசிவ
அருண சலசிவ அருணசலா!

Blessed be Arunachala! Blessed be His devotees!
Blessed be this Marital Garland of Letters!

அருண சலம்வாழி யன்பர் களும்வாழி
அக்ஷர மணமாலை வாழி.

Sri Ramana Sadguru

ரமணஸத்குரு

Pallavi

Ramaṇa Sat-Guru Ramaṇa Sat-Guru
Ramaṇa Sat-Guru rāyanē;
Ramaṇa Sat-Guru Ramaṇa Sat-Guru
Ramaṇa Sat-Guru rāyanē.

Nul

1. Pugazhum pon-nula gattu vānavar
Pōṭṭri ninḍru pugazhn-diḍum;
Tigazhum nannila-mān Tiruc-chuzhi
Tannil vanda dayā-paran. (Ramaṇa ...)
2. Azhagu Sundarar anbinil varum
Amuda vāridi Aruṇai-yān;
Mazha-viḍaip poruḷ aruḷ paḍait-tiḍu
Vaḍi-vilā vaḍi vānavan. (Ramaṇa ...)
3. Amala Jñāna aruḷ peruṅ-kaḍal
Aruṇai yaṅ-giri tannilē;
Vīmalamē voru-vāgi vandoru
Virupa naṅ-guhai mēvi-nān. (Ramaṇa ...)
4. Vādu sei-diḍu māyai tannai
Valaittu ninḍru midit-tavan;
Sūdu-sei pula nōḍu vañ-jagac
Chūzh vinait-togai aṭṭavan. (Ramaṇa ...)

ரமண ஸத்குரு ரமண ஸத்குரு
ரமண ஸத்குரு ராயனே;
ரமண ஸத்குரு ரமண ஸத்குரு
ரமண ஸத்குரு ராயனே.

1. புகழும் பொன்னுல கத்து வானவர்
போற்றி நின்று புகழ்ந்திடும்;
திகழு நன்னில மாந்தி ருச்சுழி
தன்னில் வந்த தயாபரன். (ரமண)
2. அழகு சுந்தர ரன்பி னில்வரு
மமுத வாரிதி யருணையான்;
மழவி டைப்பொரு ளருள்ப டைத்திடு
வடிவி லாவடி வானவன். (ரமண)
3. அமல ஞான வருட்பெ ருங்கட
லருணை யங்கிரி தன்னிலே;
விமல மேயுரு வாகி வந்தொரு
விருப நற்குகை மேவினான். (ரமண)
4. வாது செய்திடு மாயை தன்னை
வளைத்து நின்று மிதித்தவன்;
சூது செய்புல னோடு வஞ்சகச்
சூழ்வி னைத்தொகை யற்றவன். (ரமண)

5. Aruṇai Īsan eḍutta ṇain-diḍu
Anban en-guru nāya-kan;
Karu-ṇaiyē vaḍi-vāha nin-ḍiḍu
Kaṛpahat taru vāgi-nōn. (Ramaṇa ...)
6. Mūnḍṛu dēha maṛandu mup-pada
Vāzh-vinil kuḍi yēṛi-nān;
Tonḍrum ijjaga vāzh-viniṛ kaḷi
Yādu ninḍiḍu tōnḍ-ṛalān. (Ramaṇa ...)
7. Piṇḍa mēviya nādanē bira
Māṇḍa mēviya nāda-nāik;
Kaṇḍu ninḍṛu kaninduḷ-ēkamē
Kāṭchi-yāik kaḷi koṇḍavan. (Ramaṇa ...)
8. Poniṛan tavazh mēni-yan pugazh
Ōṅgu seṅ-jaḍai vēṇi-yan;
Tan-naruṅ guru vāga vāit-tiḍu
Tat-tuvap poruḷ ānavan. (Ramaṇa ...)
9. Pañcha bhūta niṛaindu ninḍṛavan
Pañcha kōsama datṭṛavan;
Añjalit tiḍum anbar tunba
Mozhiḱku jñāna vidā-yagan. (Ramaṇa ...)
10. Mukgu-ṇat taḍai aṭṭṛavan muda
Lāya dēva nirā-mayan;
Pakkuvat tavar vandu ninḍṛu
Paṇin-diḍum pada sēvai-yān. (Ramaṇa ...)

5. அருணை யீச னெடுத்த ணைந்திடு
மன்ப னென்குரு நாயகன்;
கருணை யேவடி வாக நின்றிடு
கற்ப கத்தரு வாகினேன். (ரமண)
6. மூன்று தேக மறந்து முப்பத
வாழ்வி னிற்குடி யேறினான்;
தோன்று மிச்சக வாழ்வி னிற்களி
யாது நின்றிடு தோன்றலான். (ரமண)
7. பிண்ட மேவிய நாதனே பிர
மாண்ட மேவிய நாதனாய்க்;
கண்டு நின்று கனிந்து ளேகமே
காட்சி யாய்க்களி கொண்டவன். (ரமண)
8. பொன்னி றந்தவழ் மேனி யன்புக
மோங்கு செஞ்சடை வேணியன்;
தன்ன ருங்குரு வாக வாய்த்திடு
தத்து வப்பொரு ளானவன். (ரமண)
9. பஞ்ச பூத நிறைந்து நின்றவன்
பஞ்ச கோசம தற்றவன்;
அஞ்ச லித்திடு மன்பர் துன்ப
மொழிக்கு ஞான விதாயகன். (ரமண)
10. முக்கு ணத்தடை யற்ற வன்முத
லாய தேவ னிராமயன்;
பக்கு வத்தவர் வந்து நின்று
பணிந்தி டும்பத சேவையான். (ரமண)

11. Ādi kārāṇa kari yaṅgaḷ
Aṟinda chin-maya pūra-ṇan;
Vādiyā mala māyai tannai
Vadaittu viṣiḍum āraṇan. (Ramaṇa ...)
12. Dēvar yāvarum vandu ninḍru
Tudit-tiḍum pada vaibha-van;
Kāva-lāgi meyṅ-jñāna nāṭṭara
Sāga ninḍriḍu kārāṇan. (Ramaṇa ...)
13. Vēda nāya-kan vēda bhūṣha-ṇan
Vēdamē uru vāyavan;
Kāda lāyp-para vāzh-viniṟ kaḍi
Dēri-ninḍru kaḷit-tavan. (Ramaṇa ...)
14. Turiyamē vaḍi vāgit tūveḷi
Āḍaraṅ-gama dāgi-nōn;
Kariyadāi jagam ēzho ḍaṅ-ḍaṅ
Kalandu ninḍra kalap-pilān. (Ramaṇa ...)
15. Chinma yat-taru viṟ-pa zhut-tiḍu
Tīṅganic chuvai āgi-nōn;
Tan-mayap poru lāyt tanit-tiḍu
Sacchidā-nandam āginon. (Ramaṇa ...)
16. Appil uppena en-manak guhai
Oppi ninḍriḍum aṅṅalān;
Appan oppavan annai yoppavan
Aṟbhu-dap poruḷ āna-van. (Ramaṇa ...)

11. ஆதி காரண காரி யங்க
ளறிந்த சின்மய பூரணன்;
வாதி யாமல மாயை தன்னை
வதைத்து வீசிடு மாரணன். (ரமண)
12. தேவர் யாவரும் வந்து நின்று
துதித்தி டும்பத வைபவன்;
காவ லாகிமெய்ஞ் ஞான நாட்டர
சாக நின்றுடு காரணன். (ரமண)
13. வேத நாயகன் வேத பூஷணன்
வேத மேயுரு வாயவன்;
காத லாய்ப்பர வாழ்வி னிற்கடி
தேறி நின்று களித்தவன். (ரமண)
14. துரிய மேவடி வாகித் தூவெளி
யாட ரங்கம தாகிடுனான்;
கரிய தாய்ச்சக மேழொ டண்டங்
கலந்து நின்ற கலப்பிலான். (ரமண)
15. சின்ம யத்தரு விற்ப முத்திடு
தீங்க னிச்சுவை யாகிடுனான்;
தன்ம யப்பொரு ளாய்த்த னித்திடு
சச்சி தானந்த மாகிடுனான். (ரமண)
16. அப்பி லுப்பென வென்ம னக்குகை
யொப்பி நின்றுடு மண்ணலான்;
அப்ப னொப்பவ னன்னை யொப்பவ
னற்பு தப்பொரு ளானவன். (ரமண)

17. Jākkiraṅ kana vōḍu chāṭṭru
Suzhutti vādai-yad aṭṭavan;
Vākki ṛandu niṛaindu ninḍ-radoṛ
Vākki-yap poruḷ ānavan. (Ramaṇa ...)

18. Sanādanap poruḷ āna vēḍiyan
Jāti bhēdama daṭṭra-van;
Anādi ninmala jñāna nāyagan
Anbinil varu jōṭiyān. (Ramaṇa ...)

19. Saṛguṇak kaḍal āna naṛguṇan
Saṛjanar pugazh nīdi-yān;
Aṛbhudac chuvai āna pāginan
Asipadat turu vānavan. (Ramaṇa ...)

20. Bhakti yōḍu paṇindu ninḍriḍu
Bhakta kōḍiyar taṅḡalai;
Mukti meik-karai kāṭṭi mūdaṛi
Uṭṭrida dhvajam iṭṭavan. (Ramaṇa ...)

21. Aḍāda seigai aḷikkum indriya
Vaṅja-naip porī vāyilil;
Viḍādu vīzhndu viḷik-kum en manap
Peyai vāvena vāḷu-vāi (Ramaṇa ...)

22. Aṅga mēri ahaṅ-garit tiḍum
Āṇavap-paḍu pāvi-yait;
Tuṅga jñāna-vāḷ koṇḍu chāḍu-vīr
Tūmaṅic chuḍar āginīr. (Ramaṇa ...)

17. ஜாக்கி ரங்கன வோடு சாற்று
சுழுத்தி வாதைய தற்றவன்;
வாக்கி றந்து நிறைந்து நின்றதோர்
வாக்கி யப்பொரு ளானவன். (ரமண)

18. ஸநாத னப்பொரு ளான வேதியன்
ஜாதி பேதம தற்றவன்;
அநாதி நின்மல ஞான நாயக
னன்பி னில்வரு ஜோதியான். (ரமண)

19. சற்கு ணக்கட லான நற்குணன்
சற்ச னர்புகழ் நீதியான்;
அற்பு தச்சுவை யான பாகின
னசிப தத்துரு வானவன். (ரமண)

20. பக்தி யோடு பணிந்து நின்றிடு
பக்த கோடியர் தங்களை;
முக்தி மெய்க்கரை காட்டி மூதறி
வுற்றி டத்வஜ மிட்டவன். (ரமண)

21. அடாத செய்கை யளிக்கு மிந்திய
வஞ்ச னைப்பொறி வாயிலில்;
விடாது வீழ்ந்து விளிக்கு மென்மனப்
பேயை வாவென வாளுவாய். (ரமண)

22. அங்க மேறி யகங்க ரித்திடு
மாண வப்படு பாவியைத்;
துங்க ஞானவாள் கொண்டு சாடுவீர்
தூம ணிச்சுட ராகினீர். (ரமண)

23. Bhānu vamsa vinōda Rama-num
Pañkayap peru vāzh-vanum;
Mānuñ śūlam aṇinda dēvanum
Mādha vak kuma-rēsanum. (Ramaṇa ...)
24. Pōṭṭri en-manak kōyil uṭṭriḍu
Puṇṇiyat tiru mēniyāi;
Pōṭṭri nin-mugam pōṭṭri nin-manam
Pōṭṭri nin-padam aiyanē. (Ramaṇa ...)
25. Nacchi ninḍru navitṭru Vēṅkaṭa
Ramaṇa nāvīlu-mēviya;
Ucchidac chuvai āna un-padam
Ucchi vait-tiḍa vēṇḍi-nēn. (Ramaṇa ...)

23. பாநு வம்ச விநோத ராமனும்
பங்க யப்பெரு வாழ்வனும்;
மானுஞ் சூல மணிந்த தேவனு
மாத வக்கும ரேசனும். (ரமண)
24. போற்றி யென்மனக் கோயி லுற்றிடு
புண்ணி யத்திரு மேனியாய்;
போற்றி நின்முகம் போற்றி நின்மனம்
போற்றி நிற்பத மையனே. (ரமண)
25. நச்சி நின்று நவிற்று வேங்கட
ரமண னாவிலு மேவிய;
உச்சி தச்சுவை யான வுன்பத
முச்சி வைத்திட வேண்டினேன். (ரமண)

ஸ்ரீ ரமண ஸ்துதிபஞ்சகம்
முற்றிற்று

श्री
उपदेश सारः॥
प्रारभ्यते ॥

कर्तुं राज्या
प्राप्य तैफलम् ॥
कर्म किंपरं
कर्म तज्जडम् ॥१॥
कृतिम होदधौ
पतन कारणम् ॥
फलम शाश्वतं
गतिनि रोषकम् ॥२॥
ईश्वरार्पितं
नेच्छ याकृतम् ॥
चित्त शोषकं
मुक्ति साधकम् ॥३॥

काय वाङ्मनः
कार्य मुत्तमम् ॥
पूज नंजप
श्चिन्त नंक्रमात् ॥४॥
जगत ईशपी
युक्त सेवनम् ॥
अष्ट मूर्तिभू
देव पूजनम् ॥५॥
उत्त मस्तवा
दुञ्ज मन्देतः ॥
चित्त जंजप
ध्यान मुत्तमम् ॥६॥

आन्य पारया
स्रोत सास्रमम् ॥
सुरल चिन्तनं
विरल तः परम् ॥७॥
भेद भावना
त्सोह मित्यसौ ॥
भाव नाभिदा
पाव नीमता ॥८॥
भाव शून्यस
द्भाव सुस्थितिः ॥
भाव नाबला
द्वक्ति रुतमा ॥९॥

हृत्स्थ केमनः
स्वस्थ ता क्रिया ॥
भक्ति योगो
पाश्र्य निश्चितम् ॥१०॥
वायु रोषना
स्त्रीय तेमनः ॥
जाल पक्षिव
द्रोष साधनम् ॥११॥
चित्त वायव
श्चिक्लि यायुताः ॥
शाख योर्द्धयी
शक्ति मूलका ॥१२॥

लयवि नाशने
उभय रोषने ॥
लयन तंपुन
भवति नैमृत्तम् ॥१३॥
प्राण बन्धना
ह्रीन मानसम् ॥
पाक चिन्तना
नाश मेल्यदः ॥१४॥
नष्ट मानसो
क्लृष्ट योगिनः ॥
कृत्य मस्तिक्लि
स्वस्थि तियतः ॥१५॥

दृश्य वारितं
चित्त मात्मनः ॥
चित्त दर्शनं
तत्त्व दर्शनम् ॥१६॥
मान संतुकिं
सार्ग णेकृते ॥
नव मानसं
मार्ग आर्जवात् ॥१७॥
वृत्त यस्त्वहं
वृत्ति माश्रिताः ॥
वृत्त यो मनो
विद्ध हंमनः ॥१८॥

अहम यंकुतो
भवति चिन्वतः ॥
अयिप तत्यहं
निजवि चारणम् ॥१९॥
अहमि नाशभा
ज्यहम हंतया ॥
स्फुरति हृत्स्वयं
परम पूर्णसत् ॥२०॥
इदम हंपदाऽ
भिरव्य मन्वहम् ॥
अहमि कीनके
प्यलय सत्तया ॥२१॥

विग्र हेन्द्रिय
प्राण पीतमः ॥
नाह मेकस
सज्ज डंङ्गसत् ॥२२॥
सत्त्व भासिका
चिक्लि वेतरा ॥
सत्त याहिचि
च्चिन्त याह्यहम् ॥२३॥
ईश जीवयो
वैष पीभिदा ॥
सत्त्व भावतो
वस्तु कैवल्यम् ॥२४॥

वेष हानतः
स्वात्म दर्शनम् ॥
ईश दर्शनं
स्वात्म रूपतः ॥२५॥
आत्म संस्थितिः
स्वात्म दर्शनम् ॥
आत्म निर्द्धया
दात्म निष्ठता ॥२६॥

२४ किंस्व रूपमि
त्यात्म दर्शने ॥
अव्य याऽभवा
पूर्ण चिस्तुरवम् ॥२६॥

ज्ञान वर्जिताऽ
ज्ञान हीनचित् ॥
ज्ञान मस्तिक्लि
ज्ञान संतरम् ॥२७॥

बन्ध मुक्तवती
तंप रंसुरवम् ॥
विन्द तीहजी
वस्तु दैविकः ॥२८॥

अहम पेतकं
निजवि भानकम् ॥
मह दि दंतपो
रमण वागियम् ॥२९॥

श्री
उपदेश सारः ॥
संपूर्णः ॥

Updesa Saram

1. kartur ājñyayā prāpyate phalaṃ karma kiṃ paraṃ karma tajjaḍam

Action yields fruit, For so the Lord
ordains it.
How can action be the Lord?
It is insentient.

2. kṛti-maho-dadhau patana- kāraṇam phalama-śaśvataṃ gati- nirodhakam

The fruit of action passes.
But action leaves behind
Seed of further action
Leading to an endless ocean of action;
Not at all to moksha.

3. īśvarārpitaṃ necchayā kṛtam citta-śodhakam mukti-sādhakam

Disinterested action
Surrendered to the Lord
Purifies the mind and points
The way to moksha.

4. kāya-vāñ-manaḥ kāryam- uttamam pūjanaṃ japa-ścintanaṃ kramāt

This is certain:
Worship, praise and meditation,
Being work of body, speech and mind,
Are steps for orderly ascent.

5. jagata īśadhī yukta sevanaṃ aṣṭa-mūrti bhṛd deva-pūjanam

Ether, fire, air, water, earth,
Sun, moon and living beings
Worship of these,
Regarded all as forms of His,
Is perfect worship of the Lord.

6. uttama-stavād-ucca-mandataḥ cittajaṃ japa dhyānam uttamam

Better than hymns of praise
Is repetition of the Name;
Better low-voiced than loud,
But best of all
Is meditation in the mind.

7. ajya-dhāraya srotasā samam sarala cintanaṃ viralataḥ param

Better than spells of meditation
Is one continuous current,
Steady as a stream,
Or downward flow of oil.

8. bheda-bhāvanāt so'hamityasau bhavana'bhidā pāvanī matā

Better than viewing Him as Other,
Indeed the noblest attitude of all,
Is to hold Him as the 'I' within,
The very 'I'.

9. bhāva śūnyasad bhāva susthitiḥ bhāvanā-balād bhaktir-uttamā

Abidance in pure being
Transcending thought through love
intense
Is the very essence
Of supreme devotion.

10. hṛtsthale manaḥ svasthatā kriyā bhakti yoga bodhaśca niścitam

Absorption in the heart of being,
Whence we sprang,
Is the path of action, of devotion,
Of union and of knowledge.

**11. vāyu-rodhanāl liyate manaḥ
jāla-pakṣivat rodha-sādhanam**

*Holding the breath controls the mind,
A bird caught in a net.
Breath-regulation helps
Absorption in the heart.*

**12. citta-vāyavaś cit-kriyāyutāḥ
śā khayor-dvayi śakti-mūlakā**

*Mind and breath (as thought and action)
Fork out like two branches.
But both spring
From a single root.*

**13. laya vinaśane ubhaya-rodhane
laya-gataḥ punar bhavati no
mṛtam**

*Absorption is of two sorts;
Submergence and destruction.
Mind submerged rises again;
Dead, it revives no more.*

**14. prāṇa-bandhanāt lina-
mānasam
eka-cintanāt nāśametyadaḥ**

*Breath controlled and thought
restrained,
The mind turned one-way inward
Fades and dies.*

**15. naṣṭa-manasot-kṛṣṭa yoginaḥ
kṛtyam asti kiṃ svasthitim yataḥ**

*Mind extinct, the mighty seer
Returns to his own natural being
And has no action to perform.*

**16. dṛśya-vāritaḥ citta-mātmanaḥ
citva-darśanaḥ tattva darśanam**

*It is true wisdom
For the mind to turn away
From outer objects and behold
Its own effulgent form.*

**17. mānasaḥ tu kiṃ mārgaṇe kṛte
naiva mānasaḥ mārga arjavāt**

*When unceasingly the mind
Scans its own form
There is nothing of the kind.
For every one
This path direct is open.*

**18. vṛttayastvahaḥ vṛtti-maśritaḥ
vṛttayo mano viddhayahaḥ manaḥ**

*Thoughts alone make up the mind;
And of all thoughts the 'I' thought is the
root.
What is called mind is but the notion 'I'.*

**19. ahamayaḥ kuto bhavati
cinvataḥ
ayi patatyahaḥ nijavicāraṇam**

*When one turns within and searches
Whence this 'I' thought arises,
The shamed 'I' vanishes –
And wisdom's quest begins.*

**20. ahami nāśa-bhā-jyahama-
hantaya
sphurati hṛt-svayaḥ parama-
pūrṇa-sat**

*Where this 'I' notion faded
Now there as I-I, arises
The One, the very Self,
The Infinite.*

**21. idamaham padā'bhikhya-
manvaham
aham-ilīnake'pyalaya sattyā**

*Of the term, 'I', the permanent import
Is That. For even in deep sleep
Where we have no sense of 'I'
We do not cease to be.*

**22. vigrah-endriya prāṇa-dhītamah
nāhameka-sat tajjaḍam hyasat**

*Body, senses, mind, breath, sleep –
All insentient and unreal –
Cannot be 'I',
'I' who am the Real.*

**23. sattva-bhāsika citkva vetarā
sattyā hi cit cittayā hyaham**

*For knowing That which is
There is no other knower.
Hence Being is Awareness;
And we all are Awareness.*

**24. īśa-jīvayor veṣa-dhī-bhidā
sat-svabhāvato vastu kevalam**

*In the nature of their being
Creature and creator are in substance
one.
They differ only
In adjuncts and awareness.*

**25. veṣa-hānataḥ svātma-
darśanam
īśa-darśanam svātma-rūpataḥ**

*Seeing oneself free of all attributes
Is to see the Lord,
For He shines ever as the pure Self.*

**26. ātma-samsthitiḥ svātma-
darśanam
ātma-nirdvayād ātma-niṣṭhatā**

*To know the Self is but to be the Self,
For it is non-dual.
In such knowledge
One abides as that.*

**27. jñāna-varjitā-jñāna-hina cit
jñānam-asti kiṃ jñātum-antaram**

*That is true knowledge which
transcends
Both knowledge and ignorance,
For in pure knowledge
Is no object to be known.*

**28. kiṃ svarūpamit-yātma darśane
avyayābhavā" pūrṇa-cit sukham**

*Having known one's nature one abides
As being with no beginning and no end
In unbroken consciousness and bliss.*

**29. bandha muktyatītam param
sukham
vindatīhajī vastu daivikaḥ**

*Beyond bondage and release,
Is steadfastness
In service of the Lord.*

**30. aham-apetakaṃ nija-
vibhānakam
mahadidaṃ tapo ramaṇa vāgiyam**

*All ego gone,
Living as that alone
Is penance good for growth,
Sings Ramana, the Self.*

Aruṇāchala Pañcaratna

Five Verses to Aruṇāchala

करुणापूर्णं सुधाब्धे कबलितघनविश्वरूप किरणावल्या ।
अरुणाचल परमात्मन्नरुणो भव चित्तकञ्जसुविकासाय ॥ १ ॥

karuṇā-pūrṇa sudhābdhe
kabalita-ghana-viśvarūpa kiraṇāvalyā,
aruṇācala paramātmann-
aruṇo bhava citta-kañja-suvikāsāya. [1]

त्वय्यरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रम् ।
हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोस्ते वदन्ति हृदयं नाम ॥ २ ॥

tvayyaruṇācala sarvaṃ
bhūtvā sthitvā pralīnam-etaccitram
hr̥dyaham-ityātma-tayā
nr̥tyasi bhoste vadanti hr̥dayaṃ nāma. [2]

अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयाऽत्यमलधिया ।
अवगम्य स्वं रूपं श्माम्यत्यरुणाचल त्वयि नदीवाब्धौ ॥ ३ ॥

aham-iti kuta āyātī-
tyanviṣyāntaḥ praviṣṭayā'tyamaladhiyā
avagamyā svaṃ rūpaṃ
śāmyatyaruṇācala tvayi nadīvābdhau. [3]

त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसाऽन्तस्त्वाम् ।
ध्यायन्पश्यति योगी दीधितिमरुणाचल त्वयि महीयं ते ॥ ४ ॥

tyaktvā viṣayaṃ bāhyaṃ
ruddha-prāṇena ruddha-manasā'ntastvām
dhyāyan-paśyati yogī
dīdhitim-aruṇācala tvayi mahīyaṃ te. [4]

त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततम् ।
भजतेऽनन्यप्रीत्या स जयत्यरुणाचल त्वयि सुखे मग्नः ॥ ५ ॥

tvayyarpita-manasā tvām
paśyan sarvaṃ tavākṛtitayā satatam
bhajate'nanyapṛityā
sa jayatyaruṇācala tvayi sukhe magnaḥ. [5]

श्रीमद्रमणमहर्षेर्दर्शनमरुणाचलस्य देवगिरा ।
पञ्चकमार्यागीतौ रत्नं त्विदमौपनिषदं हि ॥

srīmad-ramaṇa-maharṣer-
darśanam-aruṇācalasya devagirā
pañcakam-āryā-gītau
ratnam tvidam-aupanisadam hi.

॥ श्रीरमणाष्टोत्तरशतनामावली ॥

ओं महासेनमहेशेनजाताय नमः	ओं सवित्रे नमः
ओं श्रीरमणाय नमः	ओं स्थिराय नमः 30
ओं गुरुवे नमः	ओं तपःक्षपितसर्वाङ्गाय नमः
ओं अण्डसंविदाकाराय नमः	ओं फुल्लाम्बुजविलोचनाय नमः
ओं महौजसे नमः 5	ओं चन्द्रिकासितहासश्रीमण्डितानन मण्डलाय नमः
ओं कारणोद्भवाय नमः	ओं चूतवाटयांसमासीनाय नमः
ओं जगद्धितावताराय नमः	ओं चूर्णितार्ति लविभ्रमाय नमः
ओं श्रीभूमिनाथस्थलोत्थिताय नमः	ओं वेदवेदान्ततत्त्वज्ञाय नमः
ओं पराशरकुलोत्तंसाय नमः	ओं चिन्मुद्रिणे नमः
ओं सुन्दरार्यतपःफलाय नमः 10	ओं त्रिगुणातिगाय नमः
ओं कमनीयसुचरित्राय नमः	ओं विरूपाक्षगुहावासाय नमः
ओं सहायाम्बासहायवते नमः	ओं विराजदचलाकृतये नमः 40
ओं शोणाचलमहोलीनमानसाय नमः	ओं उद्दीप्तनयनाय नमः
ओं स्वर्णहस्तकाय नमः	ओं पूर्णाय नमः
ओं श्रीमद्द्वादशान्तमहास्थले लब्धविद्यो दयाय नमः	ओं रचिताचलताण्डवाय नमः
ओं महाशक्तिनिपातेनप्रबुद्धाय नमः	ओं गम्भीराय नमः
ओं परमार्तविदे नमः	ओं परमाचार्यय नमः
ओं तीव्राय नमः	ओं सुप्रसन्नाय नमः
ओं पितृपदान्वेषिणे नमः	ओं अभयप्रदाय नमः
ओं इन्दुमौलिनापितृमते नमः 20	ओं दक्षिणास्यनिभाय नमः
ओं पितुरादेशतः शोणशैलंप्राप्ताय नमः	ओं धीराय नमः
ओं तपोमयाय नमः	ओं दक्षिणाभिमुंाय नमः 50
ओं उदासीनाय नमः	ओं स्वराजे नमः
ओं महायोगिने नमः	ओं महर्षये नमः
ओं महोन्त्साहाय नमः	ओं भगवते नमः
ओं कुशाग्रधिये नमः	ओं ईडयाय नमः
ओं शान्तसङ्कल्पसंरम्भाय नमः	ओं भूमविद्याविशारदाय नमः
ओं सुसन्दृशे नमः	ओं विमलाय नमः
	ओं दीर्घदर्शिने नमः

ओं आप्ताय नमः
 ओं ऋजुमार्गप्रदर्शकाय नमः
 ओं समदृशे नमः 60
 ओं सत्यदशे नमः
 ओं सत्याय नमः
 ओं प्रशान्ताय नमः
 ओं अमितविक्रमाय नमः
 ओं सुकुमाराय नमः
 ओं सदानन्दाय नमः
 ओं मृदुभाषिणे नमः
 ओं दयार्णवाय नमः
 ओं श्रीशोणाचलहृद्भूतस्कन्दाश्रमनिकेतनाय नमः
 ओं सदृशानोपदेष्टे नमः 70
 ओं सद्भक्तवृन्दपरिवृताय नमः
 ओं गणेशमुनिभृङ्गे.न सेवितांघ्निसरोरुहाय नमः
 ओं गीतोपदेशसारादिग्रन्थसंछिन्नसंशयाय नमः
 ओं वर्णाश्रममतातीताय नमः
 ओं रसज्ञाय नमः
 ओं सौम्याय नमः
 ओं आत्मवते नमः
 ओं सर्वाविनिमतस्थानामाराध्याय नमः
 ओं सर्वसद्गुणिने नमः
 ओं आत्मारामाय नमः 80
 ओं महाभागाय नमः
 ओं मातृमुक्तिविधायकाय नमः
 ओं विनताय नमः
 ओं विनुताय नमः
 ओं विप्राय नमः
 ओं मुनीन्द्राय नमः

ओं पावकोज्ज्वलाय नमः
 ओं दर्शनादघसंहारिणे नमः
 ओं मौनेन स्वात्मबोधकाय नमः
 ओं हृच्छान्तिकरसान्निध्याय नमः 90
 ओं स्मरणाद्बन्धमोचकाय नमः
 ओं अन्तस्तिमिरचण्डांशवे नमः
 ओं संसारार्णवतारकाय नमः
 ओं शोणाद्रीशस्तुतिद्रष्टे नमः
 ओं हार्दविद्याप्रकाशकाय नमः
 ओं अविच्युतनिजप्रज्ञाय नमः
 ओं नैसर्गिकमहातपसे नमः
 ओं कमण्डलुधराय नमः
 ओं शुभ्रकौपीनवसनाय नमः
 ओं गुहाय नमः 100
 ओं दण्डपाणये नमः
 ओं कृपापूर्णाय नमः
 ओं भवरोगभिषग्वराय नमः
 ओं स्कन्दाय नमः
 ओं देवतमाय नमः
 ओं अमर्त्याय नमः
 ओं सेनान्ये नमः
 ओं पुरुषोत्तमाय नमः 108

Sri Ramana-Ashtothra-Shatha-Namavali (108 names of Sri Bhagavan)

1. om mahāsenamahomśenajātāya
namah |
2. om śrīramaṇāya namah |
3. om gurave namah |
4. om akhaṇḍasaṁvidākārāya namah
5. om mahaujase namah |
6. om kāraṇodbhavāya namah |
7. om jagaddhitāvatārāya namah |
8. om śrībhūmināthasthalotthitāya
namah |
9. om parāśarakulottaṁsāya namah |
10. om sundarāryatapaḥphalāya
namah
11. om kamaṇīyasucāritrāya namah |
12. om saḥāyāmbāsahāyavate namah |
13. om śoṇācalamaholīnamānasāya
namah |
14. om svarṇahastakāya namah |
15. om śrīmad-dvādaśāntamahāsthale
labdhavidyodayāya namah |
16. om mahāśakti-nipātena-
prabuddhāya namah |
17. om paramārthavide namah |
18. om tīvrāya namah |
19. om pitṛpadānveṣiṇe namah |
20. om indumaulināpitṛmate namah |
21. om piturādeśataḥ
śoṇaśailamprāptāya namah |
22. om tapomayāya namah |
23. om udāsīnāya namah |
24. om mahāyogine namah |
25. om mahontsāhāya namah |
26. om kuśāgradhiye namah |
27. om śāntasaṅkalpasamrambhāya
namah |
28. om susandṛṣe namah |
29. om savitre namah |
30. om sthirāya namah | 30
31. om tapaḥkṣapitasarvāṅgāya
namah |
32. om phullāmbujavilocanāya namah
33. om candrikāsita-hāsaśrī-
maṇḍitānana maṇḍalāya namah |
34. om cūtavāṭyāṁsamāsīnāya namah
35. om cūrṇitākhillavibhramāya namah
36. om vedavedāntatattvajñāya namah

37. om cinmudriṇe namaḥ |
38. om triguṇātigāya namaḥ |
39. om virūpākṣaguhāvāsāya namaḥ |
40. om virājadacalākṛtaye namaḥ | 40
41. om uddīptanayanāya namaḥ |
42. om pūrṇāya namaḥ |
43. om racitācalatāṇḍavāya namaḥ |
44. om gambhīrāya namaḥ |
45. om paramācāryāya namaḥ |
46. om suprasannāya namaḥ |
47. om abhayapradāya namaḥ |
48. om dakṣiṇāsyanihbhāya namaḥ |
49. om dhīrāya namaḥ |
50. om dakṣiṇābhimukhāya namaḥ |
51. om svarāje namaḥ |
52. om maharṣaye namaḥ |
53. om bhagavate namaḥ |
54. om īḍyāya namaḥ |
55. om bhūmavidyāviśāradāya namaḥ
56. om vimalāya namaḥ |
57. om dīrghadarśine namaḥ |
58. om āptāya namaḥ |
59. om ṛjumārgapradarśakāya namaḥ
60. om samadr̥ṣe namaḥ | 60
61. om satyadr̥ṣe namaḥ |
62. om satyāya namaḥ |
63. om praśāntāya namaḥ |
64. om amitavikramāya namaḥ |
65. om sukumārāya namaḥ |
66. om sadānandāya namaḥ |
67. om mṛdubhāṣiṇe namaḥ |
68. om dayārṇavāya namaḥ |
69. om śrīsoṇācalahṛdbhūta
skandāśrama nīketanāya namaḥ |
70. om saddarśanopadeṣṭre namaḥ |
71. om sadbhaktavṛndaparivṛtāya
namaḥ |
72. om gaṇeśamunibhr̥ṅge-na-
sevitāṅghrisaroruhāya namaḥ |
73. om gītopadeśasārādi-grantha-
saṁchinnasaṁśayāya namaḥ |
74. om varṇāśramamatātītāya namaḥ |
75. om rasajñāya namaḥ |
76. om saumyāya namaḥ |
77. om ātmavate namaḥ |

78. om sarvāvanimata-
sthānamārādhyāya namaḥ |
79. om sarvasadguṇine namaḥ |
80. om ātmārāmāya namaḥ | 80
81. om mahābhāgāya namaḥ |
82. om mātṛmuktividhāyakāya namaḥ
83. om vinatāya namaḥ |
84. om vinutāya namaḥ |
85. om viprāya namaḥ |
86. om munīndrāya namaḥ |
87. om pāvakojjvalāya namaḥ |
88. om darśanādaghasamhāriṇe
namaḥ |
89. om maunena svātmabodhakāya
namaḥ |
90. om hr̥cchāntikarasānnidhyāya
namaḥ |
91. om smaraṇādbandhamocakāya
namaḥ |
92. om antastimiracaṇḍāmśave namaḥ

93. om saṁsārārṇavatārakāya namaḥ |
94. om śoṇādrīśastutidraṣṭre namaḥ |
95. om hārdavidyāprakāśakāya namaḥ
96. om avicyutanijaprajñāya namaḥ |
97. om naisargikamahātapase namaḥ |
98. om kamaṇḍaludharāya namaḥ |
99. om śubhrakaupīnavasanāya
namaḥ |
100. om guhāya namaḥ |
101. om daṇḍapāṇaye namaḥ |
102. om kṛpāpūrṇāya namaḥ |
103. om bhavarogabhiṣagvarāya
namaḥ |
104. om skandāya namaḥ |
105. om devatamāya namaḥ |
106. om amartyāya namaḥ |
107. om senānye namaḥ |
108. om puruṣottamāya namaḥ |

“ हृदय कुहर मध्ये केवलं ब्रह्म मात्रं
ह्यहमह मिति साक्षादात्मरूपेण भाति ।
हृदि विश मनसा स्वं चिन्वता मज्जता वा
पवन चलन रोध्यादात्मनिष्ठो भवत्वम् ॥”

***hridaya kuhara madhye kevalam brahmamaatram
hyahamahamiti saakshaataatma rupenena bhaati
hridi visha manasaa svam chinvataa majjataa vaa
pavanachalana rodhaa atmanishto bhavatvam***

Brahman is glowing lustrously in the middle of the cave of the Heart in the shape of the Self, always proclaiming 'I am, I am'. Become an Atmanishta, a Self-realised person, either by making the mind absorbed in the search of the Self or by making the mind drown itself through control of the breath.

Bhajans

Invocation Verse

Nīlāravinda

नीलारविन्द सुहृदा सदृशं प्रसादे
तुल्यं तथा महसि तोयज बान्धवेन
ब्राह्म्याम् स्थितौ तु पितरं वटमूलवासं
संस्मारयन्तमचलं तमनुस्मरामः

nīlāravinda suhṛdā sadrśam prasāde
tulyam tathā mahasi toyaja bāndhavena
brāhmyām sthitau tu pitaram vaṭamūlavāsam
saṁsmārayantamacalam tamanusmarāmaḥ

Gangādhara Hara

गंगाधर हर गौरी मनोहर
शम्भो शंकर साम्बशिव
शम्भो शंकर रमण शिव

gaṅgādhara hara gaurī manohara
śambho śaṅkara sāmbaśiva
śambho śaṅkara ramaṇa śiva

प्रणवाकार परमपवित्र
अरुणविहार रमणेश्वर

praṇavākāra paramapavitra
aruṇavihāra ramaṇeśvara

जय जगदीश्वर जय परमेश्वर
हृदयनिवास रमणेश्वर

jāya jagadīśvara jaya parameśvara
hṛdaya nivāsa ramaṇeśvara

Jyoti Svarūpa

ज्योतिस्वरूप पूर्णावतार
पावकोज्ज्वल रमणेश्वर

jyoti svarūpa pūrṇāvatāra
pāvakojjvala ramaṇeśvara

आत्माराम महाभाग
पुरुषोत्तम रमणेश्वर

ātnarāma mahābhāga
puruṣottama ramaṇeśvara

तपोमय तिमिरहर
महोत्साह रमणेश्वर

tapomaya timirahara
mahotsāha ramaṇeśvara

त्रिगुणातीत सुकुमार
कृपापूर्ण रमणेश्वर

triguṇātīta sukumāra
kṛpāpūrṇa ramaṇeśvara

Om Ramaṇa

ॐ रमण ॐ रमण	om ramaṇa om ramaṇa
उपनिषद् वन्द्य ॐ रमण	upanīṣad vandyā om ramaṇa
उदार लीला ॐ रमण	udāra līlā om ramaṇa
उत्तम पुरुष ॐ रमण	uttama puruṣa om ramaṇa
श्री रामार्चित ॐ रमण	śrī rāmārcita om ramaṇa
वर रमण वर रमण	vara ramaṇa vara ramaṇa
वरदाभयकर वर रमण	varadābhayakara vara ramaṇa
वाञ्छित फलद वर रमण	vānchita phalada vara ramaṇa
वाचामगोचर वर रमण	vāchāmagochara vara ramaṇa
श्री रामार्चित वर रमण	śrī rāmārcita vara ramaṇa
निधि रमण निधि रमण	nidhi ramaṇa nidhi ramaṇa
निश्चल तत्त्व निधि रमण	nischala tatva nidhi ramaṇa
नित्य महोत्सव निधि रमण	nitya mahotsava nidhi ramaṇa
निरुपम शुभगुण निधि रमण	nirupama śubhaguṇa nidhi ramaṇa
श्री रामार्चित निधि रमण	śrī rāmārcita nidhi ramaṇa
जय रमणं जय रमण	jaya ramaṇa jaya ramaṇa
जय वरप्रद जय रमण	jaya varaprada jaya ramaṇa
जगदोद्धार जय रमण	jagadoddhāra jaya ramaṇa
जीवन्मुक्त जय रमण	jīvanmukta jaya ramaṇa
श्री रामार्चित जय रमण	śrī rāmārcita jaya ramaṇa

Tiruchuzhi Nādane

திருச்சுழி நாதனே ரமண சத்குரு
விருபாக்ஷ வாசனே ரமண சத்குரு
ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு
thiruchuzhi nādane ramaṇa sadguru
virūpakṣa vāsane ramaṇa sadguru
ramaṇa sadguru ramaṇa sadguru

கௌபீன வசனா ரமண சத்குரு
கருணா ஸமுத்ரனே ரமண சத்குரு
ஓம்கார ஸ்வரூபனே ரமண சத்குரு
ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு
kaupīna vasanā ramaṇa sadguru
karuṇā samudhrane ramaṇa sadguru
omkāra svarūpane ramaṇa sadguru
ramaṇa sadguru ramaṇa sadguru

சிதானந்த ரூபனே ரமண சத்குரு
தக்ஷிணாமூர்த்திருப ரமண சத்குரு
மௌன தத்வ போதகனே ரமண சத்குரு
ரமண சத்குரு ரமண சத்குரு
chidānanda rūpane ramaṇa sadguru
dakṣiṇāmūrti rūpa ramaṇa sadguru
mauna tatva bodhakane ramaṇa sadguru
ramaṇa sadguru ramaṇa sadguru

Sadānandāya

सदानन्दाय नमो रमण
गम्भीराय नमो रमण
परिपूर्णाय नमो रमण
अभयप्रदाय नमो रमण
दयार्णवाय नमो रमण
सुप्रसन्नाय नमो रमण
शोणाचलाय नमो रमण
अभयप्रदाय नमो रमण
करुणाकराय नमो रमण
गो लक्ष्मी प्रियाय नमो रमण
देवतमाय नमो रमण
अभयप्रदाय नमो रमण

sadānandāya namo ramaṇa
gambhīrāya namo ramaṇa
paripūrṇāya namo ramaṇa
abhayapradāya namo ramaṇa
dayārṇavāya namo ramaṇa
sūprasannāya namo ramaṇa
śoṇācalāya namo ramaṇa
abhayapradāya namo ramaṇa
karuṇākarāya namo ramaṇa
go lakshmi priyāya namo ramaṇa
devatamāya namo ramaṇa
abhayapradāya namo ramaṇa

Bhaje Ramaṇa Nāmaṁ

भजे रमण नामं	bhaje ramaṇa nāmaṁ
भजे रमण नामं	bhaje ramaṇa nāmaṁ
रमण नामं भजे मनसा	ramaṇa nāmaṁ bhaje manasā
अरुणपुरीशम् अखिलाण्डेशम्	aruṇapurīśam akhilāṇḍeśam
परमपवित्रम् परमात्मरूपम्	paramapavītram paramātmārūpam
भजे रमण नामं...	bhaje ramaṇa nāmaṁ...
महायोगीन्द्रं महोत्साहम्	mahāyogīndram mahotsāham
चिन्मुद्राप्रदं शंकरस्वरूपम्	cinmudrāpradam śaṅkarasvarūpam
भजे रमण नामं...	bhaje ramaṇa nāmaṁ...
शोणाचलेशं शोकविनाशकम्	śoṇācaleśam śokavināśakam
विरूपाक्षवासं वरदेशिकम्	virūpākṣavāsam varadeśikam
भजे रमण नामं...	bhaje ramaṇa nāmaṁ...

Skandāya Namō Namō

अरुणाचलाय नमो नमो	aruṇācalāya namo namo
स्कन्दाय ॐ नमो नमो	skandāya om namo namo
स्वर्ण हस्तकाय नमो नमो	svaṛṇa hastakāya namo namo
महौजसे ॐ नमो नमो	mahoujase om namo namo
समद्रुशे ॐ नमो नमो	samadruśe om namo namo
स्कन्दाय ॐ नमो नमो	skandāya om namo namo
उद्दीप्त नयनाय नमो नमो	uddīpta nayanāya namo namo
महर्षये ॐ नमो नमो	maharṣaye om namo namo
सौम्याय ॐ नमो नमो	saumyāya om namo namo
स्कन्दाय ॐ नमो नमो	skandāya om namo namo
जगदोद्धाराय नमो नमो	jagadodhārāya namo namo
उत्तम पुरुषाय नमो नमो	uttama puruṣāya namo namo
जीवनमुक्ताय नमो नमो	jīvanimuktāya namo namo
स्कन्दाय ॐ नमो नमो	skandāya om namo namo

Sri Ramaṇa

श्री रमण श्री रमण	śrī ramaṇa śrī ramaṇa
श्रितजन भूषण श्री रमण	śritajana bhūṣaṇa śrī ramaṇa
प्रभु रमण प्रभु रमण	prabhu ramaṇa prabhu ramaṇa
प्रसिद्ध कीर्ते प्रभु रमण	prasidhdha kīrte prabhu ramaṇa
प्रसन्न मूर्ते प्रभु रमण	prasanna mūrte prabhu ramaṇa
प्रबोध स्फूर्ते प्रभु रमण	prabodha sphūrte prabhu ramaṇa
शिव गुरु नाथ श्री रमण	śiva guru nātha śrī ramaṇa
गुरु रमण गुरु रमण	guru ramaṇa guru ramaṇa
गुह स्वरूप गुरु रमण	guha svarūpa guru ramaṇa
नमो रमण नमो रमण	namo ramaṇa namo ramaṇa
नतजन गतिप्रद नमो रमण	natajana gatiprada namo ramaṇa
नव नव यौवन नमो रमण	nava nava yauvana namo ramaṇa
नयन विशाल नमो रमण	nayana viśāla namo ramaṇa
शिव गुरु नाथ श्री रमण	śiva guru nātha śrī ramaṇa

Ānanda Svarūpa

आनन्द स्वरूप आपत्बान्धव	ānanda svarūpa āpatbāndhava
आश्रित पालक अरुणाचल	āśrita pālaka aruṇācala
अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव	aruṇācala śiva aruṇācala śiva
अरुणाचल शिव अरुणाचल	aruṇācala śiva aruṇācala
विधि माधव वन्दित चरण	vidhi mādharma vāndita caraṇa
प्रत्यक्ष परम अरुणाचल	pratyakṣa parama aruṇācala
जगद् हित कारण	jagad hita kāraṇa
विराजदचल रूप	virājadacala rūpa
विमल श्री अरुणाचल	vimala śrī aruṇācalā
अरुणाचल अरुणाचल	aruṇācalā aruṇācalā
सम्सारार्णव तारक मूर्ते	samsārārṇava tārika mūrte
स्मरणे साक्षात् मोक्षकर	smaraṇe sākṣāt mokṣakara
अपीतकुचाम्बा समेत मूर्ते	apītakucāmbā sameta mūrte
तेजोमय श्री अरुणाचल	tejomaya śrī aruṇācala
अरुणाचल अरुणाचल	aruṇācalā aruṇācala

Aruṇācaleśa

அருणाச்சலேச ஹர ரமண	aruṇācaleśa hare ramaṇa
சட்புரு ராய ஹர ரமண	sadguru rāya hare ramaṇa
இசு சூரேச ஹர ரமண	īśa sureśa hare ramaṇa
புது சுவரூப ஹர ரமண	bodha svarūpa hare ramaṇa
வெதாந்த ரூப ஹர ரமண	vedānta rūpa hare ramaṇa
ஆனந்த மூன குரு ஹர ரமண	ānanda mauna guru hare ramaṇa
தத்துவ ராய ஹர ரமண	tattuva rāya hare ramaṇa
தாண்டவ மூர்த்தி ஹர ரமண	tāṇḍava mūrti hare ramaṇa
காரணபுதுவ ஹர ரமண	kāraṇodbhava hare ramaṇa
நாடா பரண ஹர ரமண	nāgā bharana hare ramaṇa
சர்வ சட்புரணு ஹர ரமண	sarva sadgūṇin hare ramaṇa
சாந்த சுவரூப ஹர ரமண	śānta svarūpa hare ramaṇa

Saraṇāgati

சரணாகதி உன் பர நான்	śaraṇāgati un para nān
இனிப்புக்கத் துணை தான் ஏது	inipuhattunai dān yedu
நீ புகலாய் - சரணாகதி	nī puhalāi - śaraṇāgati
ஸ்மரணாத் கதி பல	smaraṇād gati pala
அருணாசல நிறை ரமணா	aruṇācala nīrai ramaṇa
கருணா வருணா ஸ்ரீ ரமணா	karuṇa varuṇa śrī ramaṇa
கருணா வருணா - சரணாகதி	karuṇa varuṇa - śaraṇāgati
தருணம் இது அன்றோ	taruṇam idu andro
உன் கருணை நோக்கவே	un karuṇai nokkave
கால ஹரண மாக்கிடில்	kāla haraṇam ākkiḍil
ஹா ஹா ஹா என் செய்வேன்	hā hā hā yen seiven
துன்பை நீக்கி இன்பை அளிக்க	tunbai nīkki inbai aḷikka
என் அன்பா	yen anbā
உலக துன்பை நீக்கி	ulaga tunbai nīkki
இன்பை அளிக்க என் அன்பா	inbai aḷikka yen anbā
இன்னும் பராமுகம் என்னால்	inum parāmukham ennāl
தாளாதையா ஸ்ரீ வேதியா	tālādaiyā śrī vediya
இன்னும் பராமுகம் என்னால்	inum parāmukham ennāl
தாளாதையா ஸ்ரீ ரமணா	tālādaiyā śrī ramaṇa

Aarathi - Karpura Neerajanam –Mantrapushpam

कपूरनीराजनम् :-

सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते । यो राजा सन् राज्यो वा
सोमेन यजते । देवसुवामेतानि हवींषि भवन्ति ।
एतावन्तो वै देवानां सवाः । त एवास्मै सवान्
प्रयच्छन्ति । त एनं पुनः सुवन्ते राज्याय । देवसूराजा
भवति ।

निर्धनपतये नमः । निर्धनपतान्तिकाय नमः । ऊर्ध्वाय नमः ।
ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः । हिरण्याय नमः । हिरण्यलिङ्गाय नमः ।
सुवर्णाय नमः । सुवर्णलिङ्गाय नमः । दिव्याय नमः । दिव्यलिङ्गाय
नमः । भवाय नमः । भवलिङ्गाय नमः । शर्वाय नमः । शर्वलिङ्गाय
नमः । शिवाय नमः । शिवलिङ्गाय नमः । ज्वलाय नमः ।
ज्वलिङ्गाय नमः । आत्माय नमः । आत्मलिङ्गाय नमः । परमाय
नमः । परमलिङ्गाय नमः । एतत्सोमस्य सूर्यस्य सर्व-लिङ्गं
स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् ॥

पश्चिमवक्त्र-प्रतिपादकमन्त्रः [17]

सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः । भवे भवे
नार्तिभवे भवस्व माम् । भवोद्भवाय नमः ॥

उत्तरवक्त्र-प्रतिपादकमन्त्रः [18]

वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नम-श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः
कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो
बलप्रमथनाय नम-स्सर्व-भूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥

अघोरैभ्योऽथ घोरैभ्यो घोरघोरंतरेभ्यः । सर्वेभ्य-स्सर्वशर्वेभ्यो
नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥

प्राग्वक्त्र-प्रतिपादकमन्त्रः [20]

तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

ऊर्ध्ववक्त्र-प्रतिपादकमन्त्रः [21]

ईशान-स्सर्व-विद्याना-मीश्वर-स्सर्व-भूतानां ब्रह्माऽधिपति-
ब्रह्मणोऽधिपति-ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम् ॥

॥ मन्त्रपुष्पम् ॥

ॐ भद्रङ्कणैर्भिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ंस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति
न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति
नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ ॥ योऽपां पुष्पं वेदं । पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति ।
चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् । पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति । य
एवं वेदं । योऽपामायतनं वेदं । आयतनवान् भवति । अग्निर्वा
अपामायतनम् । आयतनवान् भवति । योऽश्रेयतनं वेदं ॥

आयतनवान् भवति । आपो वा अश्रेयतनम् । आयतनवान्
भवति । य एवं वेदं । योऽपामायतनं वेदं । आयतनवान् भवति ।
वायुर्वा अपामायतनम् । आयतनवान् भवति । यो वायोरायतनं
वेदं । आयतनवान् भवति ॥

आपो वै वायोरायतनम् । आयतनवान् भवति । य एवं वेदं ।
योऽपामायतनं वेदं । आयतनवान् भवति । असौ वै
तपन्नपामायतनम् । आयतनवान् भवति । योऽमुष्य तपत आयतनं
वेदं । आयतनवान् भवति । आपो वा अमुष्य तपत आयतनम् ॥

आयतनवान् भवति । य एवं वेदं । योऽपामायतनं वेदं ।

आयतनवान् भवति । चन्द्रमा वा अपामायतनम् । आयतनवान्
भवति । यश्चन्द्रमस आयतनं वेदं । आयतनवान् भवति । आपो वै
चन्द्रमस आयतनम् । आयतनवान् भवति ॥

य एवं वेदं । योऽपामायतनं वेदं । आयतनवान् भवति ।
नक्षत्राणि वा अपामायतनम् । आयतनवान् भवति । यो
नक्षत्राणामायतनं वेदं । आयतनवान् भवति । आपो वै
नक्षत्राणामायतनम् । आयतनवान् भवति । य एवं वेदं ॥

योऽपामायतनं वेदं । आयतनवान् भवति । पर्जन्यो वा
अपामायतनम् । आयतनवान् भवति । यः पर्जन्यस्यायतनं वेदं ।
आयतनवान् भवति । आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् । आयतनवान्
भवति । य एवं वेदं । योऽपामायतनं वेदं ॥

आयतनवान् भवति । संवत्सरो वा अपामायतनम् ।
आयतनवान् भवति । यस्संवत्सरस्यायतनं वेदं । आयतनवान्
भवति । आपो वै संवत्सरस्यायतनम् । आयतनवान् भवति । य
एवं वेदं । योऽप्सु नावं प्रतिष्ठितां वेदं । प्रत्येव तिष्ठति ॥

ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने । नमो वयं वैश्रवणाय
कुर्महे । स मे कामान्कामकामाय मद्यम् । कामेश्वरो वैश्रवणो
ददातु । कुबेराय वैश्रवणाय । महाराजाय नमः ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

हरिः ॐ तत्सत् ॥

ॐ तद् ब्रह्म । ॐ तद् वायुः । ॐ तदात्मा । ॐ तत्सत्यम् । ॐ तत्सर्वम् । ॐ
तत्पुरोर्नमः । अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु । त्वं यज्ञस्त्वं
वषट्कार-स्त्वमिन्द्र-स्त्वंग् रुद्रं-स्त्वं विष्णु-स्त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापतिः । त्वं तदाप
आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम् ॥

यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वाधियो रुद्रो महऋषिः ।
हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं सनी देव-शुभया स्मृत्या
संयुनक्तु । यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न
ज्यायोऽस्ति कश्चित् । वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं
पूर्णं पुरुषेण सर्वम् । न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके
अमृतत्वमानशुः । परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजदेतद्यतयो
विशन्ति । वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्था-स्संन्यासयोगाद्यतय-
शुद्धसत्त्वाः । ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्परि-
मुच्यन्ति सर्वे । दहं विपापं परमेऽश्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरम-
ध्यसंस्थम् । तत्रापि दहं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्त-
दुपासितव्यम् । यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः ।
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्स महेश्वरः ॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो
ऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।

श्री रमणार्पणमस्तु
